



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 2004—दिसम्बर 24, 2004 (अग्रहायण 27, 1926)  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 18, 2004—DEC. 24, 2004 (AGRAHAYANA 27, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 दिसम्बर 2004

सं. 614, दिनांक 25 नवम्बर, 2004—राष्ट्रपति, विशेष सचिव (अधिग्रहण) के पद को अस्थायी रूप से पदावनत करके रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार (अधिग्रहण) और सदस्य, रक्षा अर्जन बोर्ड एवं अपर सचिव, श्री शील भद्र बनर्जी, भा. प्र. से. (आन्ध्र प्रदेश : 71) को 28 अक्टूबर, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में अपर सचिव (अधिग्रहण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारी वाहन निर्माणी, आवडी के निर्माण-कार्य प्रबंधक, श्री वाई. एम. दीक्षित को 11.10.2004 (पूर्वाह्न) से 10.10.2007 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संविदा खरीद अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
उप सचिव

सं. 615, दिनांक 26 नवम्बर 2004—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती सुखपाल वालिया, प्र० 'ग' को 25.10.2004 से 31.12.2004 तक की अवधि या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए इस प्रभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

## अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 616, दिनांक 25 नवम्बर 2004—राष्ट्रपति, स. से. मु. सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत, 25 अगस्त 2004 से 23 फरवरी 2005 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक या सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो, निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

- (क) श्री देव राज
- (ख) श्री दुली चंद
- (ग) श्री रघु राज सिंह
- (घ) श्री एस.के. बहल
- (च) श्री आर. के. शर्मा
- (छ) श्री प्रेम सिंह
- (ज) श्रीमती आर. सधनवालिया
- (झ) श्री जी. एस. वर्मा
- (ट) श्री डी. आर. शर्मा
- (ठ) श्री एस. सी. मल्होत्रा

(प्राधिकार : ए/47922/अनु. अधि./7(8)/2004/मु. प्र. अ./का-1/58  
दिनांक 8 सितम्बर 2004)

संतोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

-----  
(सेना शाखा)

सं. 617, दिनांक 30 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष  
नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर 14 जून 2003)

निम्नलिखित टी.ई.एस.-1 पाठ्यक्रम के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में  
लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2003 से स्थायी रूप से विशेष सेना  
निर्देश 3/99 के अंतर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, आई सी नम्बर एवं आर्म्/सर्विस

- गगन सिंह (आईसी-63234वाई), इंजीनियर
- प्रबल श्रीवास्तव (आईसी-63235एफ), सिग्नल
- योगेश मेहता (आईसी-63236के), इंजीनियर
- आशुतोष कुमार (आईसी-63237एम), इंजीनियर
- संजीव नरूला (आईसी-63238पी), ईएमई
- आशीश खत्री (आईसी-63239एक्स), इंजीनियर
- विपुल अग्रवाल (आईसी-63240एम), सिग्नल
- रोहित (आईसी-63241पी), ईएमई
- मनीष पाठक (आईसी-63242एक्स), इंजीनियर
- रुचियन सिंघल (आईसी-63243ए), इंजीनियर
- गौरव सिंह (आईसी-63244एच), ईएमई
- समर सिरौही (आईसी-63245एल), सिग्नल
- सुमित प्रकाश गुप्ता (आईसी-63246एन), ईएमई
- अरविन्द जदली (आईसी-63247डब्ल्यू), इंजीनियर
- अभिनव कुमार चौधरी (आईसी-63248वाई), ईएमई

- अधीश सिन्हा (आईसी-63249एफ), ईएमई
- भविष्य कश्यप (आईसी-63250डब्ल्यू), सिग्नल
- कौशलेन्द्र त्यागी (आईसी-63251वाई), ईएमई
- जयकिशन मास्के (आईसी-63252एफ), इंजीनियर
- डुमु सारा चन्द्र (आईसी-63253के), ईएमई
- सुदीप मोहन रावत (आईसी-63254एम), इंजीनियर
- मनीष कोकल (आईसी-63255पी), सिग्नल
- चिन्मय्या मुंड (आईसी-63256एक्स), ईएमई
- विख्यात गर्ग (आईसी-63257ए), सिग्नल
- गौरव श्रीवास्तव (आईसी-63258एच), सिग्नल
- अनिरुद्ध बोस (आईसी-63259एल), सिग्नल
- अनिल राणाकोटी (आईसी-63260ए), इंजीनियर
- अमित सिंह (आईसी-63261एच), ईएमई
- शरंगपाणी अपूर्वा संजीव (आईसी-63262एल), ईएमई
- विवेक यादव (आईसी-63263एन), इंजीनियर
- संदिप कुमार दास (आईसी-63264डब्ल्यू), सिग्नल
- सुराजित सिन्हा राय (आईसी-63265वाई), इंजीनियर
- सौरभ सूद (आईसी-63266एफ), सिग्नल
- पिल्लई सुनील शंकर (आईसी-63267के), इंजीनियर
- आशीश आनन्द (आईसी-63268एम), ईएमई
- मोहित गोगना (आईसी-63269पी), इंजीनियर
- अक्षय कपूर (आईसी-63270के), सिग्नल
- राजेश उन्नीकृष्णन (आईसी-63271एम), इंजीनियर
- प्रणव मोहोत्रा (आईसी-63272पी), सिग्नल
- संजीव कुमार सिंह (आईसी-63273एक्स), ईएमई
- कालरा रिशभ रविन्द्र (आईसी-63274ए), ईएमई
- अभिषेक अग्रवाल (आईसी-63275एच), इंजीनियर
- खेडकर रिशीकेश अरूण (आईसी-63276एल), इंजीनियर

(अल्प सेवा आयोग)

ले. के पद पर

निम्नलिखित जेन्टलमैन कैंडिडेट्स को अल्पकालीन सेवा आयोग  
(तकनीकी)-20 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों  
के अन्तर्गत ले. के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान  
किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको  
दिनांक 20 मार्च 2004 से पांच वर्ष के लिये अल्पकालीन सेवा आयोग  
(परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 20 मार्च 2002 से विशेष  
सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता,  
वेतन तथा उन्नति के लिये दी जाती है:--

नाम, एस एस नं. और आर्म/सर्विस  
 विशाल अरोरा (एसएस-40508एम), ईएमई  
 रवि प्रकाश (एसएस-40509पी), ईएमई  
 कार्तिक (एसएस-40510के), इंजीनियर  
 सुदर्शन सिंह यादव (एसएस-40511एम), ईएमई  
 प्रशान्त पाटिल (एसएस-40512पी), इंजीनियर  
 राजीव सिंह पवैया (एसएस-40513एक्स), इंजीनियर  
 अंशुमन विक्रम सिंह (एसएस-40514ए), ईएमई  
 प्रवीन कुमार (एसएस-40515एच), सिगनल  
 आर. एस. श्याम (एसएस-40516एल), सिगनल  
 राहुल रघुवंशी (एसएस-40517एन), सिगनल  
 रघु एस. (एसएस-40518डब्ल्यू), सिगनल  
 अनुज बिन्दा (एसएस-40519वाई), ईएमई  
 दिलीप रेड्डी जी. (एसएस-40520एन), इंजीनियर  
 अमित सहगल (एसएस-40521डब्ल्यू), सिगनल  
 जीजू वर्गीज (एसएस-40522वाई), ईएमई  
 सत्या श्रीनिवास वल्लूरी (एसएस-40523एफ), इंजीनियर  
 सदानन्द व्याली (एसएस-40524के), ईएमई  
 कुमार केशव वी. के. (एसएस-40525एम), सिगनल  
 अनुजा कुमार आचार्य (एसएस-40526पी), इंजीनियर

अरविन्द कुमार  
 मेजर  
 उप सह सेना सचिव 8वीं

नेवी ब्रांच

रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 618, दिनांक 25 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती मीना मेदिरता वैयक्तिक सहायक को सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में निजी सचिव पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2002 में आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.4.2004 से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6500-10500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2004 से 23.02.2005 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख')

राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं :-

- (क) श्री शिव कुमार
- (ख) श्री जी एस सहगल
- (ग) श्री रामेश्वर प्रसाद

ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

सन्तोष दासगुप्ता  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु शाखा

सं. 619, दिनांक 30 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 और वायु सेना अनुदेश 20/76 उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :-

भारतीय वायु सेना  
 वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग आफिसर पीला चन्द्र शेखर (27938), एस राघवेन्द्रन (27939), जयप्रकाश (27940), केदरी सईद शाह इमरान उल्लाह (27941), बिजेन्द्र पाण्डेय (27942), अमित मलिक (27943), दिनांक 05 जून 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग आफिसर पवन कुमार भारद्वाज (27944), कालासकर प्रदीप हरिभाऊ (27945), के राजेन्द्रन (27946), थोमस जोहन (27947), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तिथि से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं :-

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर रनप्रीत सिंह सोधी (26082), अमित कुमार सांगवान (26100) और चरणजीव सिंह (26109), दिनांक 17 जून 2000 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन एवं ब्रेवेट परखाधीन प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन एवं ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख से यानि 21 दिसम्बर 2002 से उड़ान वेतन पाने का अधिकारी हैं :-

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

उड़ान नैविगेटर शाखा

फ्लाईंग अफसर तनमोय नन्दी (27238), दिनांक 21 दिसम्बर 2000 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त अन्य सेवा कमीशन परखाधीन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 और वायु सेना अनुदेश 2/73 शुद्धि पत्र 10/84 द्वारा संशोधन के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :--

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर दीपक कृष्णानी (27117), धीरज यादव (27331), तलसानिया हिरेन कुमार मन्सुकर्भाई (27332), मुकेश यादव (27333), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

##### वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर विकास फालसवाल (27144), एम जे बालामुरगन (27393), सन्तोष कुमार बायोकोदन (27394), विरियला राघवेन्द्र किशोर (27395), पेनु वेल्लेरी (27396), शंशाक शर्मा (27397), सानु नायर के एस (27398), अंशुमान समाजपाई (27399), सुनील कुमार पाण्डेय (27400), एल राजगोपाल (27401), राजेन्द्र सिंह (27402), पोनापा एम बी (27403), खितिज वशिष्ठ (27404), गौरव प्रताप (27405), विक्रम चड्ढा (27406), शहाब अहमद (27409), अरविन्द रामकृष्णन (27410), सन्दीप यादव (27411), तनुज वर्मा (27412), के जयन्दन (27413), मोरंगथेम अमरजीत सिंह (27414), गौरव शर्मा (27415), बुन मारी जोसफ अन्टोनी एल (27416), सतीश कुमार (27432), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की पत्र संख्या वा.से.मु./22258/1/पीओ 3(ए)/1611/डीओआईए/(वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 और वायु सेना अनुदेश 2/73 शुद्धि पत्र 10/84 द्वारा संशोधित के उपबन्धों के तहत फ्लाईंग आफिसर रैंक में स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :--

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा

फ्लाईंग आफिसर सिद्धार्थराज पालीवाल (27310), गजेन्द्र प्रताप सिंह (27311), विवेक चतुर्वेदी (27312), मोहित शर्मा (27313), कुमार परन्थु (27314), प्रवीण कुमार अरलागड़ा (27315), एम दिन्ती बाबु (27316), बी कार्तिकेयन (27317), एम कार्तिकेयन (27318), शशिधर (27319), प्रवीण नरसिम्हा मूर्ध्नि डोनी (27320), सूविन कुमार एस वी (27321), प्रशान्त कुमार शर्मा (27322), प्रसन्ना आर बाडिंगर (27323), राजकुमार पी (27324), सी कलेमेन्ट चेलाई अनन्तराज (27325), प्रवीण प्रभकरण नायर (27326), रविन्द्र अग्रवाल (27327), रामनाथ हरशन पी (27328), जोति रविन्द्र (27329), अभिषेक बंसल (27419), सतीश एस (27424), कोडली जयराजशेखर अमरनाथ (27425), मूवाकारान मुरलीधरन (27429), परसुन प्रभाकरण (27430), अनिल कुमार पी (27431), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

##### वैमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल शाखा

फ्लाईंग आफिसर परवेज असलम (27334), श्रीरमन मुरलीधरन (27335), प्रबोध कुमार उदयन कुमारन (27336), परन्थुष आनन्द

(27337), मोहित कुमार वर्मा (27338), गौरव शुक्ल (27339), प्रीतम कुमार (27340), गौरव शर्मा (27341), कमलेश कुमार झा (27342), जयप्रकाश प्रशान्त (27343), शिवेन्द्र नाथ (27344), अविनाश दुबे (27345), धर्मवीर यादव (27346), चैतन्य ए जी एन (27347), चार्न्स सोलोमन (27348), बी कार्तिक (27349), शंकर रमन रामाचन्द्र (27350), शमुगम राजेश (27351), सुब्रमनियन कृष्णामूर्ति (27352), माषेकर श्रीनिवासुक्कु (27353), पंकज कुमार डे (27354), गिरिधर श्रीधर (27355), चैतन्य पवन बोलेटी (27356), सन्तोशकुमार चव्हाण (27357), दीपक व्यास (27358), किशोर एन (27359), सबुर अहमद (27360), किरण कृष्णन (27361), अभिषेक प्रेमी (27362), चाक्रेट गुलाटी (27363), सुखविन्दर सिंह (27364), मधुकर थापलियाल (27365), सिद्धार्थ शर्मा (27366), एस प्रसाद (27367), विक्रम सिंह उन्लासाई (27368), प्रतीक वशिष्ठ (27369), एन प्रवीण (27370), वागेखमयुम खेलेन्जीत (27371), सन्ननन सेलवराज (27372), पंकज यादव (27373), जयसलीन मारिया कलाडिस (27374), सुदिप्ता मुखर्जी (27375), देरला वैकट राजेश (27376), किरण कुमार कंचनफुदे परमशिवाय (27377), ओरगनजी सुधीर बाबु (27378), मोहम्मद जावेद खान (27379), अनिल पंत (27380), थाऊनाजाम ब्रोजन सिंह (27381), अनुप राज वर्सने (27382), मुरलीसवरम राजेन्द्रन (27383), अजीत कयाथ यथिन्द्र दास (27384), दीपक गर्ग (27385), सचिन सोना (27386), अब्दुलाह जहीद (27387), हिरेन प्रमोदभाई कोठरी (27388), केशव सुरेश कुमार (27389), प्रीतीश मिश्रा (27390), गुरजाप सिंह (27391), अविजीत सिंह चौहान (27392), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डीडीपीओ 3(डी)

#### वायु शाखा

सं. 620, दिनांक 30 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर जिन्हें स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान किया गया था की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तारीख में करते हैं :--

#### भारतीय वायु सेना

##### उड़ान (नैविगेटर) शाखा

फ्लाईंग अफसर तनमोय नन्दी (27238), दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

संजीव श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डीडीपीओ 3(डी)

#### सेना शाखा (नियमित सेना)

##### सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

सं. 621, दिनांक 25 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

दफादार निर्मल चंद्र दत्ता (सं. 6483452एक्स अब जेसी-680737एक्स), 18 अगस्त 2004/15 मई 2004\*

दफादार करन सिंह (सं. 6484192के अब जेसी-680738ए), 12 अगस्त 2004/15 मई 2004\*

दफादार एल. आर. सी जगताप (सं. 6470840डब्ल्यू अब जेसी-680739एच), 15 मई 2004/15 मई 2004

दफादार जानकी प्रसाद सोनी (सं. 6470640ए अब जेसी-680741ए), 9 अगस्त 2004/01 जून 2004\*

दफादार भागीरथ गौड़ा (सं. 647002पी अब जेसी-680742एच), 30 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

दफादार बच्चा प्रसाद (सं. 6470662वाई अब जेसी-680743एल), 13 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

दफादार केदार नाथ मिश्रा (सं. 6371050एन अब जेसी-680744एन), 13 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

दफादार राम दास कुर्मी (सं. 6471187ए अब जेसी-680745डब्ल्यू), 12 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

दफादार राजबीर सिंह (सं. 6471191एच अब जेसी-680746वाई), 12 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

दफादार शिव मुनी राम (सं. 6471332एम अब जेसी-680747एफ), 26 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

दफादार वेद पाल (सं. 6375541एम अब जेसी-680748के), 01 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004

दफादार सोहन सिंह (सं. 6471398एच अब जेसी-680749एम), 01 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

\*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है।

## वायु रक्षा तोपखाना कोर

## सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार सिकंदर सिंह (जेसी-255876एच), 10 मई 2004/01 मई 2004\*

सूबेदार राम निवास यादव (जेसी-226514वाई), 01 मई 2004

सूबेदार उदय सिंह यादव (जेसी-255177एक्स), 01 जुलाई 2004

सूबेदार हरनाम सिंह (जेसी-256771एल), 01 जुलाई 2004

सूबेदार अमल कुमार कुंडु (जेसी-296056एल), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सिवादासन पी (जेसी-226659के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार श्रवन कुमार राजपूत (जेसी-296049पी), 01 अगस्त 2004

## सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (लिपिक) के पद में

सूबेदार धरमबीर सिंह (जेसी-255938वाई), 06 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

## सब्सटेंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार राम सूरत (जेसी-297855एन), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार पाटील यशवंत भीमराव (जेसी-297987एफ), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार नरेश चंदर (जेसी-298335पी), 06 जून 2004/29 फरवरी 2004\*

नायब सूबेदार चंद्रशेखरन नायर एस (जेसी-297996एच), 02 जून 2004/01 मार्च 2004\*

नायब सूबेदार हरी कृष्णा (जेसी-297608ए), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004\*

नायब सूबेदार श्याम सुंदर मंदार (जेसी-298081एच), 22 जून 2004/26 अप्रैल 2004\*

नायब सूबेदार शंकर लाल (जेसी-297777एफ), 09 जून 2004/01 मई 2004\*

नायब सूबेदार मंगला राम डेका (जेसी-297758डब्ल्यू), 09 जुलाई 2004/06 मई 2004\*

नायब सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-297575ए), 07 जून 2004/11 मई 2004\*

नायब सूबेदार दया किशन् (जेसी-297684एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शिवानंदन पासवान (जेसी-298054वाई), 01 जून 2004

नायब सूबेदार माने सांताराम यशवंत (जेसी-297303ए), 03 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार राजा राम यादव (जेसी-297262एफ), 03 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार हरपाल (जेसी-298087के), 10 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार शिव पाल (जेसी-298102एन), 07 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार जोसेफ पी पी (जेसी-298384एफ), 18 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार रविंदर सिंह (जेसी-297955वाई), 12 जुलाई 2004/10 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-297893के), 20 जुलाई 2004/11 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार प्रेम चंद शर्मा (जेसी-298195एन), 11 अगस्त 2004/21 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार रोशन लाल यादव (जेसी-297797पी), 14 अगस्त 2004/25 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार ए अलबर्ट (जेसी-298324एच), 14 सितम्बर 2004/30 जुलाई 2004\*

नायब सूबेदार सर्बजीत सिंह (जेसी-297452एन), 28 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-297827एफ), 08 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार रतन गिरी (जेसी-298291एच), 08 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-298375डब्ल्यू), 15 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार मुरलीधरन ए ओ (जेसी-298461एफ), 13 सितम्बर 2004/07 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-297739एल), 07 सितम्बर 2004/08 अगस्त 2004 \*

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए आई जी) के पद में

नायब सूबेदार एम चंद्रसेकरन (जेसी-297524एम), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार पत्ती वेंकटेशवरलु (जेसी-297500एच), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी आइ एफ सी) के पद में

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-298568डब्ल्यू), 25 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-298500पी), 01 सितम्बर 2004

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार विनोद कुमार उपाध्याय (जेसी-296937के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार सतपाल सिंह गिल (जेसी-297005के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-297006एम), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार मोहमद बदिर अली (जेसी-297085एम), 01 सितम्बर 2004

सब्सटेंटिव सूबेदार (एस के टी) के पद में

नायब सूबेदार बकुल चंद्र सिकंदर (जेसी-297627एल), 14 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004 \*

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

कोर ऑफ सिगनल्स

स्थायी सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार सत नारायण (जेसी-215287के), 10 जुलाई 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-220458पी), 1 अगस्त 2004

स्थायी सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार राम सिंह मीना (जेसी-218925एच), 14 जून 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

सूबेदार मोहन सिंह वर्मा (जेसी-218933एफ), 02 अगस्त 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार हवा सिंह (जेसी-369782एल), 01 जुलाई 2004

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार एस आर एस प्रकाश राव (जेसी-369335एफ), 05 जनवरी 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

सूबेदार सी एस प्रसाद (जेसी-369362एल), 02 मार्च 2003

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

सूबेदार चिन्तामनी सिंह (जेसी-369746ए), 12 जुलाई 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार गोपाल कृष्ण बंदोपाध्याय (जेसी-369820डब्ल्यू), 02 मई 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार मेथ्यु टी (जेसी-369821वाई), 01 जून 2004

सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-369830ए), 05 जुलाई 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार अजीत कुमार दत्ता (जेसी-369837के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार अभ्यानंद पांडेय (जेसी-369840के), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार हेरा बाबू सिंघा (सं. 15354157वाई अब जेसी-375483एच), 01 मार्च 2004

## नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार राम चन्द्र चव्हाण (सं. 14254270एच अब जेसी-375365एल), 01 मई 2004

हवलदार निर्मल कुमार बी (सं. 14249978वाई अब जेसी-375569एफ), 01 मई 2004

हवलदार शिशु पाल सिंह (सं. 14254657एल अब जेसी-375570डब्ल्यू), 01 मई 2004

हवलदार उपेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14254766एक्स अब जेसी-375573 के), 01 जून 2004

हवलदार प्रदीप कुमार सिंह (सं. 14254779पी अब जेसी-375574एम), 01 जून 2004

हवलदार ए के शर्मा (सं. 14244290एच अब जेसी-375585वाई), 01 जुलाई 2004

सूबेदार राम निवास (सं. 14242997एफ अब जेसी-375587के), 01 जुलाई 2004

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 14248698वाई अब जेसी-375588एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार हरि किशन (सं. 14252201एन अब जेसी-375589पी), 01 जुलाई 2004

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14254124एच अब जेसी-375590के), 01 जुलाई 2004

हवलदार जय नारायण (सं. 14254651के अब जेसी-375591एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार दिनेश चन्द्र जोशी (सं. 14253977एन अब जेसी-375592पी), 01 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार सोम राज (सं. 14254330एम अब जेसी-375546ए), 03 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार उत्तम ब्रह्म (सं. 14254815बी अब जेसी-375547एच), 01 जून 2004

हवलदार हयात सिंह (सं. 14255446पी अब जेसी-375548एल), 01 जून 2004

हवलदार राम फल शर्मा (सं. 14255480पी अब जेसी-375549एन), 11 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ए के पन्ना (सं. 14257332एच अब जेसी-375576एक्स), 01 जून 2004

हवलदार पी सी पटनायक (सं. 14255612एक्स अब जेसी-375577ए), 01 जून 2004

हवलदार अलेख प्रसाद साहू (सं. 14257333एल अब जेसी-375593एक्स), 01 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार दया चन्द (सं. 14256146ए अब जेसी-375595एच), 01 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14239287वाई अब जेसी-375509एम), 01 अप्रैल 2004

हवलदार गणेश सिंह (सं. 14243882ए अब जेसी-375515ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार भारत भूषण (सं. 14246237डब्ल्यू अब जेसी-375527पी), 01 मई 2004

हवलदार मिथिलेश ठकुर (सं. 14241335एम अब जेसी-375560एम), 01 जून 2004

हवलदार अनंत राम (सं. 14230690के अब जेसी-375596एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार सुखबीर सिंह राना (सं. 14239385वाई अब जेसी-375597एन), 01 जुलाई 2004

हवलदार सुविन्दर सिंह (सं. 14299355एल अब जेसी-375598डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

हवलदार महाबीर प्रसाद (सं. 14242205डब्ल्यू अब जेसी-375599वाई), 01 जुलाई 2004

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 14242454पी अब जेसी-375600एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14242497के अब जेसी-375601एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14243047वाई अब जेसी-375602एन), 01 जुलाई 2004

हवलदार सतीश चन्द (सं. 14243280डब्ल्यू अब जेसी-375603डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

हवलदार श्री राम महाराना (सं. 14247238एल अब जेसी-375605एफ), 01 जुलाई 2004

हवलदार जल्पू राम (सं. 14242247एच अब जेसी-375617डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

रा. चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सं. 622, दिनांक 26 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
रक्षा तथा सुरक्षा कोर  
नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार ऋषि राम (सं. 4050792ए अब जेसी-841591एच),  
17 जुलाई 2004°

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 13738743वाई अब जेसी-841592एल),  
07 जून 2004°

हवलदार लक्ष्मण यादव (सं. 13606957एच अब जेसी-841600वाई),  
16 जून 2004°

°(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004)

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 7236459एच अब जेसी-841604पी),  
17 मई 2004°

हवलदार हुसैन आलम खान शाह (सं. 2862540पी अब  
जेसी-841615एफ), 17 मई 2004°

°(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार जीत सिंह (सं. 4050776एच अब जेसी-841628वाई),  
04 जून 2004°

हवलदार लीलाधर शर्मा (सं. 10388922वाई अब  
जेसी-841629एफ), 09 जून 2004°

हवलदार धरम पाल (सं. 10133976डब्ल्यू अब जेसी-841633के),  
09 जून 2004°

°(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4046444 एफ अब जेसी-841656एल),  
26 अगस्त 2004°

°(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक भोसले भगवान (सं. 10118466एक्स अब  
जेसी-841640ए), 23 जून 2004°

°(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004)

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

सं. 623, दिनांक 25 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर  
सूबेदार मेजर के स्थाई पद पर

(पेड) कार्यकारी सूबेदार मेजर ए मेरी जॉन (जेसी-2070494एच),  
पदोन्नति दिनांक 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004\*

\*वरीयता दिनांक •

विजय कपूर  
अवर सचिव

सं. 624, दिनांक 25 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार वरगीस थॉमस (जेसी-201562एन), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ब्रेस्तु राम (जेसी-419404एल), 01 अप्रैल 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-418950एल); 02 जुलाई  
2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
07 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम बहादुर सिंह (जेसी-418622एक्स), 28 अगस्त  
2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम देव सिंह (जेसी-418944एक्स), 25 अगस्त 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-418972के), 18 अगस्त 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-418980एच), 01 अगस्त 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लटपटे बालासाहेब शाहुराव (जेसी-418981एच),  
23 अगस्त 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2004 से दी जायेगी)



**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जन 2004 से दी जायेगी)**

नायब सबेदार नरेश सिंह चौहान (जेसी-419058ए), 28 अगस्त 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सुबेदार प्रताप सिंह (जेसी-419093एच), 24 अगस्त 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार रमेश नारायण सुतने (जेसी-419171पी), 03 अगस्त 2004 \*

\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार छगन सिंह शेखावत (जेसी-419214वाई), 01 सितम्बर 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार ताजणे सुधाकर निवृत्ति (जेसी-419215एफ), 03 अगस्त 2004 \*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सबेदार रिसाल सिंह (जेसी-419273एल), 12 अगस्त 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह (जेसी-419291एन), 01 सितम्बर  
2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सबेदार श्याम सिंह (जेसी-419306एल), 23 अगस्त 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-419307एम), 23 अगस्त 2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार जबर सिंह राठौर (जेसी-419318ए), 01 सितम्बर  
2004\*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सबेदार सशीपाल सिंह (जेसी-419364पी), 01 सितम्बर 2004 \*

**\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)**

नायब सूबेदार विरेंद्रा सिंह चौहान (जेसी-419017डब्ल्यु), 18 अगस्त 2004\*

नायब सूबेदार साजी टी जी (जेसी-419569के), 15 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रेम चंद (जेसी-419148एफ), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय राम (जेसी-419155एक्स), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार इंद्रा मनी सिन्हा (जेसी-419209एम), 25 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोविन्द राम (जेसी-419226एन), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-419256एल), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कमलेश कुमार सिंह (जेसी-419293वाई), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चुन्नीलाल चौहान (जेसी-419375एफ), 13 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-419380एम), 13 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रूप चंद (जेसी-419393के), 13 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम सिंह शेखावत (जेसी-419403एच), 01 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-419470एन), 13 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-419472वाई), 13 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-419530एक्स), 01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार जगवीर (जेसी-419580एच), 15 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-418773डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार गुंजा गुरुंग (जेसी-418774वाई), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार दौलत राम (जेसी-418783ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार श्याम सुंदर (जेसी-419086एम), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार बचन सिंह (जेसी-419158एल), 02 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मेहत्रे विश्वनाथ तुकाराम (जेसी-419222एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार मधुसदन बन्दोपाध्याय (जेसी-419285ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार पूरन सिंह, एस एम (जेसी-419392एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रकाश चंद (जेसी-419537एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-419545ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राजदेव यादव (जेसी-419570वाई), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) मसन्त सिंह पनवर (जेसी-419002एन), 09 जून 2004 \*

\*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश ओझा (जेसी-419003डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

जोश थोमस  
अवर सचिव

सं. 625, दिनांक 25 नवम्बर 2004—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कमीशन  
मेजर बनाया जाता है

कैप्टन जे एस आमन्द (टी ए सं. 42234), इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 98  
कैप्टन अजय कृष्णा (टी ए सं. 42383), इन्फैन्ट्री, 26 फरवरी 03

एम. एल. शर्मा  
अवर सचिव

सं. 626, दिनांक 30 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमिशन  
(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) पद पर

सुजान सिंह (एम आर-03256एन), 30 जून 2004 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2004 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) पद पर

आर आर फुलगांवकर (एम आर-04007एफ), 03 फरवरी 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13 मई 2003 से दी जाती है।

एस सी तोमर (एम आर-04636वाई), 28 जनवरी 2004 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है।

ए खेत्रपाल (एम आर-04238एक्स), 11 मार्च 2004 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है।

राजवीर भलवार (एम आर-03952एल), 27 फरवरी 2004 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 अक्टूबर 2003 से दी जाती है।

मेजर (व समकक्ष) से ले. कर्नल (व समकक्ष) पद पर

एस एस यादव (एन टी आर-16492एन), 27 मार्च 2004 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2004 से दी जाती है।

एम श्रीवास्तवा  
ब्रिगेडियर

उप म. नि.स.से. चि. सेवा (का.)

सं. 627, दिनांक 29 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति

आई सी सं., नाम, आर्म्स/सर्विस, मूल रैंक की तिथि

बी के गोस्वामी (आई सी-36298) आर्टी, 01 दिसम्बर 2002

एम आर के बाबू (आई सी-34341) इंजीनियर, 01 दिसम्बर 2002

ए के मधोलकर (आई सी-34337) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

परमवीर (आई सी-34432) आर्टी, 01 दिसम्बर 2002

शेर सिंह (आई सी-34460) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

एम पाणिग्रही (आई सी-34592) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

बी पी वी कोशी (आई सी-34606) ए ओ सी, 01 दिसम्बर 2002

एस पी काबरा (आई सी-34484) ए डी ए, 01 दिसम्बर 2002

आर एस रंधावा (आई सी-36903) आर्टी, 01 दिसम्बर 2002

एम एस एस कृष्णन (आई सी-36905) ए ओ सी, 01 दिसम्बर 2002

बी ए प्रसाद (आई सी-36958) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

अमित्वा पोद्दार (आई सी-36977) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

पी बक्षी (आई सी-34760) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

एस पी पनी (आई सी-34781) सिग्नल, 01 दिसम्बर 2002

के जे एस राणा (आई सी-34796) ए ओ सी, 01 दिसम्बर 2002

एस एस जाधव (आई सी-34800) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

ए जे पिरोज (आई सी-34828) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

वी तनेजा (आई सी-34843) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

एन ए सुब्रमणियन (आई सी-34844) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

आर पी साही (आई सी-34888) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

ए एस बाजवा (आई सी-34920) आर्टी, 01 दिसम्बर 2002

वी बी खुराना (आई सी-34982) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

सी वी रविन्द्रन (आई सी-34986) ए सी, 01 दिसम्बर 2002

सुनील बाली (आई सी-34997) इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2002

मेजर से ले. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

आर पी सिंह (आईसी-39188), ए डी ए, 31 दिसम्बर 2002

एस एस संधू (आईसी-39309), आर्टी, 31 दिसम्बर 2002

जी के पाठक (आईसी-39431), ए ई सी, 31 दिसम्बर 2002

एस के कोहली (आईसी-41046), इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2002

एम एस भेला (एस एल-2724), एस एल (टेक), 31 दिसम्बर 2002

अतुल हाण्डा (आईसी-38724), आर्टी, 31 दिसम्बर 2002

एन औडिसेशैया (आईसी-38774), ई एम ई, 31 दिसम्बर 2002

ए के प्रेहार् (आईसी-38857), ए एस सी, 31 दिसम्बर 2002

ए एकामबरम (आईसी-38921), ई एम ई, 31 दिसम्बर 2002

ए के सिंह (आईसी-40656), ई एम ई, 31 दिसम्बर 2002

ओर चोपड़ा (आईसी-39130), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002

पी एस जग्गी (आईसी-39140), ए डी ए, 31 दिसम्बर 2002

एच वी शर्मा (आईसी-39157), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 ए सरीन (आईसी-39176), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 पी के सिन्हा (आईसी-39346), मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 के ईश्वरन (आईसी-39371), ई एम ई, 31 दिसम्बर 2002  
 ए कृण्डु (आईसी-35470), ए सी, 01 जून 1998  
 राजीव तलवार (आईसी-35485), ए सी, 01 जून 1998  
 आर सेट्टी (आईसी-38770), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 यु शंकर (आईसी-38864), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 ए के मुखर्जी (आईसी-38882), सिग्नल, 31 दिसम्बर 2002  
 आर पन्त (आईसी-38886), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2002  
 ए के सरकार (आईसी-38918), आर्टी, 31 दिसम्बर 2002  
 बी सी कवेरियप्पा (आईसी-35352), ए ओ सी, 01 जून 98  
 के एन पुरी (आईसी-37280), आर्टी, 01 जून 98  
 पी एस मेहता (आईसी-37316), ए सी, 01 जनवरी 2000  
 वी के मदान (आईसी-35926), आर्टी, 01 जनवरी 2000  
 ए सुधीर (आईसी-35991), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000  
 प्रदीप सैनी (आईसी-38045), आर्टी, 01 जनवरी 2000  
 एस जे सिंह (आईसी-38046), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000  
 पी श्रीवास्तव (आईसी-38084), आर्टी, 01 जनवरी 2000  
 एम एम दत्ता (आईसी-38148), आर्टी, 01 जनवरी 2000  
 जे एस मेहता (आईसी-37466), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000  
 भलिन्दर सिंह (आईसी-37504), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000  
 बी एस चौधरी (आईसी-38560), ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000  
 डी सम्सेना (आईसी-38562), आर्टी, 31 दिसम्बर 2000  
 दीपक मल्होत्रा (आईसी-38565), ए एस सी, 31 दिसम्बर 2000  
 अनिल नंदा (आईसी-38568), आर्टी, 31 दिसम्बर 2000  
 ए वाजपेयी (आईसी-38580), सिग्नल, 31 दिसम्बर 2000  
 एस सी मिश्रा (आईसी-38588), ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000  
 वी गोपालन (आईसी-35012), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 1998  
 दीपक मेहता (आईसी-35116), इन्फैन्ट्री, 01 जून 1998  
 एन पापाराव (आईसी-34412), ए सी, 01 जून 1998  
 आलोक बत्रा (आईसी-36000), आर्टी, 01 जनवरी 2000  
 सुखजीत सिंह (आईसी-37374), इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000  
 ए नरसिम्हन (आईसी-38088), ए डी ए, 01 जनवरी 2000

एम सेल्वायनी (आईसी-42201), इन्जीनियर्स, 09 जून 2004  
 ए एम मजुमदार (आईसी-03108), एस एल (क्यू एम), 20 जुलाई 2004  
 अजमेल सिंह (एसएल-03281), ई एम ई, 20 जुलाई 2004  
 बी मिश्रा (एसएल-03078), एस एल (ए ओ सी), 25 जुलाई 2003  
 ओंकार सिंह (एसएल-03216), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 वलजीन्दर सिंह (एसएल-03249), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 एच एस ग्रीवर (एसएल-03251), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 एस श्रीनिवासन (एसएल-03160), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 जगदेव सिंह (एसएल-03149), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 के एस नायर (एसएल-03298), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 एस एस पी सिंह (एसएल-03246), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 एम पुरुषोत्तमन (एसएल-03104), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 आर एस मण्डरावल (एसएल-03172), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 आर एस दसीला (एसएल-03253), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 के सी रावत (आईसी-42245), ए ई सी, 09 जून 2004  
 एम जेड यू सिद्दिकी (आईसी-45142), ए सी, 10 अगस्त 2004  
 पी कुमार (एसएल-03189), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 आर वी कुट्टी (एसएल-03197), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 ओ पी मेहता (एसएल-03203), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 एस के अहलावत (एसएल-03305), ए ई सी, 20 जुलाई 2004  
 एस एन एस तोमर (एसएल-03263), ए ओ सी, 20 जुलाई 2004  
 आर डी सिंह (एसएल-03259), ए ओ सी, 20 जुलाई 2004  
 एस सी मण्डल (एसएल-03250), सिग्नल, 20 जुलाई 2004  
 आर एस राना (एसएल-03148), एस एल, 20 जुलाई 2004  
 मेजर से ले. कर्नल (समय मान) के मूल रैंक में  
 पंजाब देशमुख (आईसी-42082), सिग्नल, 09 जून 2004  
 आर आर तारायनन् (आईसी-42157), ए डी आर्टी, 09 जून 2004  
 दीपक वर्मा (आईसी-45268), ए डी आर्टी, 25 अप्रैल 2004  
 सतीश चन्द्रा (आईसी-42160), ई एम ई, 09 जून 2004  
 शफत खान (आईसी-42127), ई एम ई, 09 जून 2004  
 एस सी राय (आईसी-42152), ई एम ई, 09 जून 2004  
 विनय कुमार (आईसी-44018), ई एम ई, 14 जून 2004  
 वी एस नायल (आईसी-42117), इन्फैन्ट्री, 09 जून 2004

विजय सिंह (आईसी-35604), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 1999  
 वी के कपूर (आईसी-42053), इन्फैन्ट्री, 09 जून 2004  
 के एन प्रसाद (आईसी-41901), आर्टी, 09 जून 2004  
 विरेन्द्र यादव (आईसी-38976), ए एस सी, 07 जून 2000  
 के कुमार (आईसी-39424), ए ई सी, 13 दिसम्बर 2000  
 एस पी मुधोलकर (आईसी-39738), आर्टी, 13 जून 2001  
 एम साद्वी (आईसी-40316), आर्टी, 12 जून 2002

शशि शंकर सिन्हा  
 उप निदेशक  
 एम एस-8ए

सं. 628, दिनांक 30 नवम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना  
 स्थाई कमीशन  
 कप्तान से मेजर

कुलदीप अहलावत (आईसी-47627), इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 1999

लेफ्टिनेण्ट से कैप्टन

कुलदीप अहलावत (आईसी-47627), इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 1999

आदित्य वर्मा (आईसी-55968), आर्टी, 07 नवम्बर 2002

सुमित बाना (आईसी-55976), ई एम ई, 07 नवम्बर 2002

पी वी रमेश बाबू (आईसी-56697), ए डी आर्टी, 07 दिसम्बर 2002

जगजीत बासवाना (आईसी-58565), एम एफ, 12 दिसम्बर 2003

अमित शर्मा (आईसी-58804), ई एम ई, 12 जून 2003

चिरंजीत मेधी (आईसी-58870), आर्टी, 12 जून 2003

दीपक बोरा (आईसी-59122), इन्जीनियर्स, 11 दिसम्बर 2003

बिशनजीत सिंह ग्रेवाल (आईसी-59384), इन्जीनियर्स, 11 दिसम्बर 2003

पी जोसफ शालुजीत (आईसी-59526), सिग्नल्स, 11 दिसम्बर 2003  
 प्रीतिपाल सिंह भाटिया (एसएल-04142), इन्जीनियर्स, 14 जनवरी 2000

मोहन सिंह (एसएल-04613), इन्जीनियर्स, 24 अप्रैल 2004

बिरेन्द्र सिंह निर्भय (एसएल-04614), इन्जीनियर्स, 24 अप्रैल 2004

भगवान दास (एसएल-00119), ए ओ सी, 12 सितम्बर 2002

हरपिंदर सिंह ढिल्लोन (आईसी-59082), इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 2003

एम अर्जुन रंगन (आईसी-59165), आर्टी, 11 दिसम्बर 2003

राजेश जगलान (आईसी-59170), आर्टी, 11 दिसम्बर 2003

कुशल गांगुली (आईसी-59211), ई एम ई, 11 दिसम्बर 2003

रजनीश कुमार माही (आईसी-59523), आर्टी, 11 दिसम्बर 2003

निशांत चंदेल (आईसी-59707), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

पीयूष कुमार गुप्ता (आईसी-59867), इन्जीनियर्स, 10 जून 2004

अरूण मलिक (आईसी-59912), ए ओ सी, 10 जून 2004

मुरलीधर (एसएल-04642), इन्जीनियर्स, 24 अप्रैल 2004

राहुल फौजदार (आईसी-59603), आर्टी, 10 जून 2004

अभिजीत चन्द्रकांत टेम्बे (आईसी-59608), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

शशिकांत भुम्भा (आईसी-59634), आर्टी, 10 जून 2004

अमित अहलावत (आईसी-59665), ए सी, 10 जून 2004

विशाल रावत (आईसी-59716), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

कावुरू भानू प्रकाश (आईसी-59718), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

दीपक पट्टिआल (आईसी-59754), ए ओ सी, 10 जून 2004

दामले स्वानन्द मनोहर (आईसी-59786), इन्ड, 10 जून 2004

वांग्खेन्थूम संजीव सिंह (आईसी-59832), ए ओ सी, 10 जून 2004

रोहित सिंह रावत (आईसी-59860), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

मांडला जयराजी रेड्डी (आईसी-59869), इन्फैन्ट्री, 10 जून 2004

सिद्धार्थ बुगल (आईसी-62484), सिग्नल्स, 11 जून 2004

सैकण्ड लेफ्टिनेण्ट से लेफ्टिनेण्ट

कुलदीप अहलावत (आईसी-47627), इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 1990

(वेतन एवं भत्ते 30 दिसम्बर 1990 से देय)

के एस वर्मा  
 संयुक्त निदेशक  
 एम एस-8सी

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 629, दिनांक 30 नवम्बर 2004.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

गु. आ. नि. (इंजीनियरी उपस्कर), पुणे के श्री एम. एल. मित्तल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 18 नवम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (वाहन), नई दिल्ली के श्री पी. एस. गिल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 नवम्बर 2003 (अपराह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (इलेक्ट्रॉनिक्स), बंगलूर के श्री रघुनाथ, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 18 नवम्बर 2003 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (इलेक्ट्रॉनिक्स), बंगलूर के श्री एम. पी. एस. धंत्री, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 27 नवम्बर 2003 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. (आयुध), आवड़ी के श्री एम. सेलामुथु, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व. गु. आ. स्था. (आयुध) चैन्नई में दिनांक 23 जनवरी 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. नि. (इ. एफ. एस.), विशाखापटनम के श्री वी. एल. परांजपे, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 23 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (राखर), बंगलूर के श्री बी. एन. नागराज, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (इलेक्ट्रॉनिक्स), जबलपुर के श्री इब्राहिम खान, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 02 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु. आ. नि. (इलेक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली के श्री गेंदा लाल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु. आ. नि. (इलेक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली के श्री रामजी लाल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का मुख्यालय गु. आ. नि. (नैवल) में दिनांक 26 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु. आ. नि. (युद्धपोत परियोजना), नई दिल्ली के श्री एस. एस. सेठी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-1 की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. (युद्धपोत उपस्कर), कोलकाता के श्री बी. सी. मुकीम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-1 का गु. आ. नि. (इ. एफ. एस.), कोलकाता में दिनांक 30 जुलाई 2004 (अपराह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. नि. (डब्ल्यू. एस.), मुम्बई के श्री आर. पी. र्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-1 की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. नि. (युद्धपोत उपस्कर), मुम्बई के श्री एच. ए. जी. शेख, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-1 का गु. आ. स्थापना (युद्धपोत परियोजना), मुम्बई में दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (एफ.एफ.ई.), पुणे के श्री ई.पी.के. नायियार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु. आ. नि. (इंजिनियरी उपस्कर) पुणे में दिनांक 31 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (कपड़ा एवं मिल), कानपुर के श्री एन. एन. श्रीवास्तव,

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (सामान्य भंडार), नई दिल्ली के श्री जे.पी. सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का मुख्यालय गु. आ. नि. (भंडार) नई दिल्ली में दिनांक 26 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (लघु सस्त्र), इच्छपुर के श्री ए.के. साहा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु. आ. नि. (लघु सस्त्र), इच्छपुर में दिनांक 31 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (आयुध), दिल्ली कैंट के श्री अजय कुमार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी में व. गु. आ. स्था. (लघु सस्त्र), कानपुर में दिनांक 23 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (लघु सस्त्र), इच्छपुर के श्री डी.के. बसाक, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु. आ. नि. (लघु सस्त्र), इच्छपुर में दिनांक 31 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

डी.ई.ओ., नई दिल्ली के श्री ए.डी. चटर्जी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोटक), इटरसी के श्री सी. कुजूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु. आ. नि. (सैन्य विस्फोटक), खड़की में दिनांक 27 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोटक), भंडारा के श्री एम.एल. सुतोषिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोटक), खम्मरिया के श्री एन.एच. सहाना, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 26 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु. आ. नि. (सैन्य विस्फोटक), किरकी के श्री एस. सुब्रह्मनियन, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 20 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोटक), अरुणाकडु के श्री एम. अलीमुथु, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोटक) एच.ई.एफ. खड़की में दिनांक 30 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु. आ. नि. (आयुध), नई दिल्ली के श्री एल.एस. नारंग, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु. आ. स्था. नि. (एम.एस.) मुम्बई में दिनांक 30 अगस्त 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु. आ. नि. (आयुध), नई दिल्ली के श्री परमानंद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मुख्यालय गु. आ. नि. (युद्धपोत परियोजना) में दिनांक 30 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

डा. पविन्दर कौर  
उप सचिव

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 630, दिनांक 29 नवम्बर 2004—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर पदोन्नति करते हैं :—

## नाम, स्थापना एवं दिनांक

श्री सुरेन्द्र महावीर जैन, ए डी आर डी ई, आगरा--1 जुलाई 2004  
 श्री के धर्मेन्द्र दिवाकर, ए डी आर डी ई, आगरा--1 जुलाई 2004  
 श्री सुनील थपलियाल, डील, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री भूपेन्द्र सुमन, डील, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री सविता डी के, डील, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री बी सिद्धप्पाजी, डील, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 डा. प्रतिभा पाण्डे, डी आर डी ई, ग्वालियर--1 जुलाई 2004  
 डा. पवन कुमार देश, डी आर डी ई, ग्वालियर--1 जुलाई 2004  
 डा. राकेश भार्गव, डी आर डी ई, ग्वालियर--1 जुलाई 2004  
 श्री एम जे मेण्डकी, डी आर डी ई, ग्वालियर--1 जुलाई 2004  
 श्री जगदीश जी भुजबल, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री एस एस भीसे, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्रीमती फ्लोरेंस मेनुएल, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री एम पी कुलकर्णी, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री अनिल एम बारवे, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री एस बी नवाले, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री अमीय कुमार नन्दी, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री पी के आदक, हेमरल, पूणे--1 जुलाई 2004  
 श्री राजीव कुमार दास, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री राकेश कुमार अग्रवाल, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री दान सिंह, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री अनन्त कुमार शुक्ला, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री सतीश चन्द्र वर्मा, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री गिरीश चन्द्र, सासे, चण्डीगढ़--1 जुलाई 2004  
 श्री नरेन्द्र कुमार, आई आर डी ई, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री विनय बलूनी, आई आर डी ई, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री विनय कुमार शर्मा, आई आर डी ई, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री प्रदीप कुमार, आई आर डी ई, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 कु. जूमी हजारीका, आई आर डी ई, देहरादून--1 जुलाई 2004  
 श्री सी जी सुबुद्धि, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री सरोज कुमार पट्टनायक, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004

श्री मिलन कुमार पाल, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री घनश्याम अधिकारी, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री मनमोहन संधु, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री फिरोज बाबू टी ए, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री प्रदीप साहा, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री चिन्मय कुमार नायक, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री ए के एल भगत, आई टी आर, चान्दीपुर--1 जुलाई 2004  
 श्री विश्वज्योति हजारीका, पी एक्स ई, बालासोर--1 जुलाई 2004  
 श्री राज कुमार गंगवार, पी एक्स ई, बालासोर--1 जुलाई 2004  
 श्री ए वी कन्हाई, पी एक्स ई, बालासोर--1 जुलाई 2004

जे. के. खण्डवाल  
 संयुक्त निदेशक, (कार्मिक)

## एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

## (स्थाई कमीशन)

सं. 631, दिनांक 30 नवम्बर 2004.—भारत के राष्ट्रपति, नौसेना विनियमवली भाग 3, साविधिक.....के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की .....शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :—

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

आशुतोष (42108जेड), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 सी करमाकार (42110बी), 01 जनवरी 2000/16 जनवरी 2002  
 हरे विजय पाला (42111एफ), 01 जनवरी 2000/01 मार्च 2002  
 एस शर्मा (42112एच), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 वी कार्तिकेयन (42115आर), 01 जुलाई 2000/01 जुलाई 2002  
 सौरभ मैटी (42116टी), 01 जुलाई 2000/01 जुलाई 2002  
 धीरेन्द्र सिंह (42118वाई), 01 जुलाई 2000/16 जुलाई 2002  
 अनुराग सूद (42119जेड), 01 जुलाई 2000/16 जुलाई 2002  
 पी के रविकांत (42158एन), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 भिसे शांतनु डी (42221के), 01 जनवरी 2002/16 फरवरी 2004  
 दास सुब्रो (42202एन), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004  
 फर्नांडीज डोमिनिक (42203आर), 01 जनवरी 2002/16 अप्रैल 2004  
 गुप्ता मोहित (42204टी), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004  
 कार्वे दीपक (42205डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002/01 अक्टूबर 2004  
 कुलदीप ए के (42206वाई), 01 जनवरी 2002/16 जून 2004



निशांत एन (42207जेड), 01 जनवरी 2002/01 नवम्बर 2004  
 पिल्ड आर के (42208ए), 01 जनवरी 2002/16 अक्टूबर 2004  
 मासंकारेन्स रंजीत सी एम (42209बी), 01 जनवरी 2002/01 जून 2004

वालिया सुमीत (42211एच), 01 जनवरी 2002/01 अगस्त 2004  
 आर पामनानी (42060आर), 01 जनवरी 1999/16 जनवरी 2001  
 जे आदित्य सिंह (42061टी), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 पी यशुबाबू (42062डब्ल्यू), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 आर अभिनन्द (42063वाई), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 एस बेहरा (42113के), 01 जनवरी 2000/16 जनवरी 2002  
 ए भारद्वाज (42134एच), 01 जनवरी 2001/01 मई 2003  
 वी गोखले (42138टी), 01 जनवरी 2001/01 मार्च 2003  
 एस गुप्ता (42139डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 एस कार्तिकेन (42140वाई), 01 जनवरी 2001/16 जुलाई 2003  
 एस कोमल कुमार (42143बी), 01 जनवरी 2001/16 जून 2003  
 के एस नेहरा (42146के), 01 जनवरी 2001/01 जून 2003  
 रोहित पंत (42147एन), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 सी एस परमार (42149टी), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003

(स्थाई कमीशन)

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 124 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की.....शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

ए भद्रकमकर (42058के), 01 जनवरी 1999/01 जुलाई 2001  
 जिम मैथ्यू (42059एन), 01 जनवरी 1999/16 फरवरी 2001

(अस्थाई कमीशन)

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की.....शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

अन्थोनी जी डिस्जा (42317जेड), 08 जनवरी 2002/08 फरवरी 2004

जे जेम्स (42314टी), 07 जनवरी 2002/07 दिसम्बर 2003  
 ए एस हारून (42309एफ), 07 जनवरी 2002/22 नवम्बर 2003  
 जी के प्रमोद (42296ए), 07 जनवरी 2002/07 अप्रैल 2004  
 वी एम कदम (42297बी), 07 जनवरी 2002/22 नवम्बर 2003  
 एस के चौधरी (42316वाई), 08 जनवरी 2002/08 जनवरी 2004

(स्थाई कमीशन)

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की.....शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

एन एस देशमुख (42353एफ), 12 अगस्त 2002/12 फरवरी 2004  
 एस किरण (42335आर), 12 अगस्त 2002/12 फरवरी 2004  
 ए नबिरा (42231बी), 02 जुलाई 2001/02 जनवरी 2003  
 सी ए साहने (42340ए), 12 अगस्त 2002/12 फरवरी 2004  
 प्रवीण जी (42339जेड), 12 अगस्त 2002/12 फरवरी 2004  
 रवि एस (42332एच), 12 अगस्त 2002/27 फरवरी 2004  
 संजू जे (42337डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002/27 फरवरी 2004  
 अकरम के इलियास (42325टी), 12 अगस्त 2002/12 मार्च 2004  
 निलेश जोषे डी (42328जेड), 12 अगस्त 2002/12 मार्च 2004  
 अजय सिंह (42345एन), 12 अगस्त 2002/12 मार्च 2004  
 संदीप आर एस (42322के), 12 अगस्त 2002/27 मार्च 2004  
 डी के कार्तिक (42347टी), 12 अगस्त 2002/12 अप्रैल 2004  
 एस रघुवंशी (42320एफ), 12 अगस्त 2002/12 अप्रैल 2004  
 गणेश एम (42327वाई), 12 अगस्त 2002/27 अप्रैल 2004  
 नितिन मेहता (42341बी), 12 अगस्त 2002/27 अप्रैल 2004  
 अमित सूड (42321एच), 12 अगस्त 2002/12 मई 2004  
 एस प्रकाश (42359डब्ल्यू), 16 अगस्त 2002/16 मई 2004  
 टी जी जोशी (42329ए), 12 अगस्त 2002/12 मई 2004  
 सनग्देव (42318ए), 12 अगस्त 2002/27 मई 2004  
 महेन्द्रन सी आर (42338वाई), 12 अगस्त 2002/12 जून 2004  
 थायाच वी (42352बी), 12 अगस्त 2002/12 जून 2004  
 अनूप चेरियन (42348डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002/27 जून 2004  
 अरूण एस (42363बी), 23 अगस्त 2002/08 जुलाई 2004  
 अब्राहम टी के (42343एच), 12 अगस्त 2002/27 जून 2004  
 पी के सिंह (42344के), 12 अगस्त 2002/27 जून 2004  
 एस एन नटराजन (42361जेड), 22 अगस्त 2002/07 जुलाई 2004  
 अनूप कूरियन पी (42334एन), 12 अगस्त 2002/12 जुलाई 2004  
 अरूण कुमार (42350जेड), 12 अगस्त 2002/12 जुलाई 2004  
 के पी शबरीशा (42357आर), 15 अगस्त 2002/15 जुलाई 2004  
 वी करुणाकर (42342एफ), 12 अगस्त 2002/27 जुलाई 2004  
 गिरिश आर जाधव (42356एन), 14 अगस्त 2002/29 जुलाई 2004  
 रंजीत आर एम (42354एच), 12 अगस्त 2002/27 जुलाई 2004  
 किशन के बी (42351ए), 12 अगस्त 2002/27 जुलाई 2004

आर आर राजा (42358टी), 16 अगस्त 2002/16 अगस्त 2004  
 पी मधु (42355के), 12 अगस्त 2002/27 अगस्त 2004  
 किरण के आर (42333के), 12 अगस्त 2002/27 अगस्त 2004  
 वी लिनकोल्न (42349वाई), 12 अगस्त 2002/12 सितम्बर 2004  
 के सुभाष (42326डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002/12 सितम्बर 2004  
 (स्थायी कमीशन)

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 124 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

बी पी एस ग्रेवाल (42234के), 02 जुलाई 2001/02 जनवरी 2003  
 अजीत मैथ्यू (42237टी), 02 जुलाई 2001/17 फरवरी 2003  
 दीपक कोट (42245के), 02 जुलाई 2001/17 अप्रैल 2003  
 जसविन्दर एस बाल (42244एच), 02 जुलाई 2001/17 मई 2003  
 विवेक कामत (42241ए), 02 जुलाई 2001/17 मई 2003  
 एम परमकार (42240जेड), 02 जुलाई 2001/17 जुलाई 2003  
 बिदकार जी डी (42229जेड), 02 जुलाई 2001/17 जुलाई 2003  
 अभिषेक दूबे (42239ए), 02 जुलाई 2001/17 जुलाई 2003  
 देवायन एन के (42230डब्ल्यू), 02 जुलाई 2001/02 सितम्बर 2003  
 अनिन्दया एस दत्ता (42238डब्ल्यू), 02 जुलाई 2001/17 नवम्बर 2003  
 सुमित उपाध्याय (42232एफ), 02 जुलाई 2001/02 अक्टूबर 2003  
 एस जी नीलकुंड (42236आर), 02 जुलाई 2001/02 नवम्बर 2003  
 जी एम लखमपूरे (42179के), 03 जुलाई 2000/03 जनवरी 2002  
 बी जी पेरूमपीले (42218जेड), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2002  
 एम बी थिमैय्या (42219ए), 01 जनवरी 2001/01 नवम्बर 2002  
 अहिश गनु एस (42220बी), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2002  
 योगेश अमृतलाल बी (42221एफ), 01 जनवरी 2001/01 अगस्त 2002  
 शिवकुमार घाटगे (42222एच), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2002  
 ए मार्विन जोश (42223के), 01 जनवरी 2001/16 जुलाई 2002  
 गंगाटिरकर प्रशांत एस. (42224एन), 01 जनवरी 2001/16 सितम्बर 2002  
 एम टी अशोक कुमार (42225आर), 01 जनवरी 2001/16 अक्टूबर 2002

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 124 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इन्जिनियर शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

राजेश एस (42124के), 03 जनवरी 2000/18 जुलाई 2001  
 चेन्नी एस कुमार (42125एन), 03 जनवरी 2000/03 जुलाई 2001  
 बी के निशान्त (42128डब्ल्यू), 03 जनवरी 2000/18 अगस्त 2001  
 के पी विजय कुमार (42133एफ), 03 जनवरी 2000/18 अगस्त 2001

#### अस्थायी कमीशन

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 124 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की अभियंता शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

ए प्रवीण (42294वाई), 07 जनवरी 2002/22 फरवरी 2004  
 जी पी कुमार (42301एन), 07 जनवरी 2002/22 अप्रैल 2004  
 पी किशोर कुमार (42298एफ), 07 जनवरी 2002/07 जनवरी 2004  
 टी पी विनोद कुमार (42299एच), 07 जनवरी 2002/07 दिसम्बर 2003  
 एम पी अजय (42307ए), 07 जनवरी 2000/07 अक्टूबर 2003  
 पी देशपांडे (42308बी), 07 जनवरी 2002/22 दिसम्बर 2003  
 वी अग्रवाल (42313आर), 07 जनवरी 2002/22 जुलाई 2003  
 एम काकडे (42302आर), 07 जनवरी 2002/22 जनवरी 2004  
 विकास वर्मा (42305वाई), 07 जनवरी 2002/07 मई 2004  
 जयसेनन वाई (42292टी), 07 जनवरी 2002/22 अप्रैल 2004  
 अनूप रावन (42300के), 07 जनवरी 2002/07 नवम्बर 2003  
 संजीव राजू (42291आर), 07 जनवरी 2002/07 जून 2004  
 पी मैथिआज (42293डब्ल्यू), 07 जनवरी 2002/22 मई 2004  
 आई तपलवाले (42303टी), 07 जनवरी 2002/07 मार्च 2004  
 राहुल दलाल (42315डब्ल्यू), 07 जनवरी 2002/07 अप्रैल 2004  
 गपि कुमार (42289के), 07 जनवरी 2002/22 जुलाई 2003  
 बी विसवास (42295जेड), 07 जनवरी 2002/07 मार्च 2004  
 एस विमलकुमार (42311के), 07 जनवरी 2002/07 जुलाई 2003

#### स्थायी कमीशन

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 125 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख एवं लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

गौतम वाई बी (51673एन), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 गुप्ता विपुल (51674आर), 01 जनवरी 2000/01 अक्टूबर 2002  
 ललित कुमार (51675टी), 01 जनवरी 2000/01 फरवरी 2002

मथई जॉर्ज (51676डब्ल्यू), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 पदम संदीप (51677वाई), 01 जनवरी 2000/16 जनवरी 2002  
 सिंह दीपा कुमार (51678 जेड), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 सागू टी सिंह (51679ए), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 भटनागर मृणाल (51750एन), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004  
 चौहान सौरभ (51751आर), 01 जनवरी 2002/16 जनवरी 2004  
 गारगोरी सिद्धार्थ (51752टी), 01 जनवरी 2002/16 जून 2004  
 इनामदार विवेक (51753डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002/16 मई 2004  
 कर्वे इशान ए (51754वाई), 01 जनवरी 2002/01 नवम्बर 2004  
 कौशिक अमित (51755जेड), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004  
 मनीष कुमार (51756ए), 01 जनवरी 2002/01 अगस्त 2004  
 पंत गुंजन (51757बी), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004  
 प्रदीप कुमार (51758एफ), 01 जनवरी 2002/01 सितम्बर 2004  
 राम प्रसेनजित (51759एच), 01 जनवरी 2002/01 अगस्त 2004  
 शर्मा आशुतोष (51760के), 01 जनवरी 2002/16 मार्च 2004  
 शिव कुमार बी (51761एन), 01 जनवरी 2002/16 फरवरी 2004  
 वेंकटसुब्रमनियम आर (51762आर), 01 जनवरी 2002/01 फरवरी 2004  
 विशेष विरेन्द्र विक्रम (51763टी), 01 जनवरी 2002/16 फरवरी 2004  
 कुमार जे (51620टी), 01 जनवरी 1999/01 जनवरी 2001  
 पिंसोलकर एम (51621डब्ल्यू), 01 जनवरी 1999/16 जून 2001  
 सैनी रवि (51622वाई), 01 जनवरी 1999/16 जनवरी 2001  
 कुमार संतोष (51623जेड), 01 जनवरी 1999/01 जनवरी 2001  
 बिरादर एस के (51624ए), 01 जनवरी 1999/01 जनवरी 2001  
 डी चन्द्रशेखर (51552एन), 01 जनवरी 1998/16 अगस्त 2000  
 शर्मा निशांत (51558ए), 01 जनवरी 1998/16 फरवरी 2000  
 रातूडी आदित्य (51597आर), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 फर्नांडीस अनिल (51598टी), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 भंडारी आशीष दत्त (51599डब्ल्यू), 01 जुलाई 1998/16 जुलाई 2000  
 घोदी सरदीप सिंह (51600वाई), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 गुहा शुभारंगशू (51601जेड), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 गोखले डी यशवन्त (51602ए), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 मदाभुशीप नवीन (51603बी), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 शर्मा निशान्त (51604एफ, 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000

शर्मा सचिन (51605एच), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 योगेश सिंह (51606के), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 पी के बसाक (51658बी), 01 जनवरी 1999/01 मई 2001  
 श्रीदीप एस नायर (51619आर), 01 जनवरी 1999/16 मार्च 2002  
 अमरेश के सिंह (51625बी), 01 जुलाई 1999/16 अक्टूबर 2001  
 एम भट्टाचार्या (51626एफ), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 माइकल ए रिग्यूज (51627एच), 01 जुलाई 1999/16 जुलाई 2001  
 विक्टर प्रताप सिंह (51629एन), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 आशीष अग्रवाल (51630आर), 01 जुलाई 1999/01 जुलाई 2001  
 शैलेन्द्र गुप्ता (51680बी), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 राघवेन्द्र सिंह (51681एफ), 01 जनवरी 2000/01 जनवरी 2002  
 पी वी कार्थिक (51547ए), 01 जुलाई 1998/01 जुलाई 2000  
 राहुल इनामदार (51548बी), 01 सितम्बर 1998/01 सितम्बर 2000  
 कुलश्रेष्ठ अंकुर (51693एच), 01 जनवरी 2001/01 अप्रैल 2003  
 सिंह भूपेन्द्र (51694के), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2003  
 चतुर्वेदी मनोज (51695एन), 01 जनवरी 2001/01 मार्च 2003  
 दास पी पी (51696आर), 01 जनवरी 2001/16 अप्रैल 2003  
 मेहरा प्रबल (51697टी), 01 जनवरी 2001/16 मई 2003  
 मिश्रा प्रभात (51698डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001/16 जुलाई 2003  
 मित्तल अनुराग (51699वाई), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 मोहन पी आर जगन (51700जेड), 01 जनवरी 2001/16 फरवरी 2003  
 नायर दीपक (51701ए), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2003  
 ओबराय नितीन (51702बी), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 पेरी अरूण कुमार (51703एफ), 01 जनवरी 2001/01 फरवरी 2003  
 रविखन्ना वी (51704एच), 01 जनवरी 2001/01 सितम्बर 2003  
 शर्मा एस चन्द्र (51705के), 01 जनवरी 2001/16 मार्च 2003  
 सिंह अमरदीप (51706एन), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 सिंह माधवेंद्र (51707आर), 01 जनवरी 2001/16 फरवरी 2003  
 सिंह रविकुमार (51708टी), 01 जनवरी 2001/16 अप्रैल 2003  
 श्री कंठ एस (51709डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 वर्मा रामराज (51710आई), 01 जनवरी 2001/01 मई 2003  
 एस सरवन्न (51576टी), 10 जनवरी 1998/10 जुलाई 1999

दीपक तोमर (51839आर), 07 जनवरी 2002/07 जुलाई 2003  
 एस मराठे (51842वाई), 07 जनवरी 2002/07 जनवरी 2004  
 अनुराग एस (51849एन), 07 जनवरी 2002/07 नवम्बर 2003  
 राकेश पॉल (51844ए), 07 जनवरी 2002/07 दिसम्बर 2003  
 एस घोष (51843जेड), 07 जनवरी 2002/22 अगस्त 2003  
 आर बालाजी (51855ए), 07 जनवरी 2002/22 जनवरी 2004  
 रवि एस सिंह (51845बी), 07 जनवरी 2002/07 अक्टूबर 2003  
 एन एस श्रीनिवासन (51851टी), 07 जनवरी 2002/22 अगस्त 2003  
 प्रदीप के नन्दा (51689जेड), 03 जनवरी 2000/03 जुलाई 2001  
 एस गोपू (51690ए), 03 जनवरी 2000/18 सितम्बर 2001  
 के माधव (51691बी), 03 जनवरी 2000/03 मार्च 2002  
 कुजाल मेहता (51692एफ), 03 जनवरी 2000/18 सितम्बर 2001  
 बी के नाथ (51774टी), 01 जनवरी 2001/01 दिसम्बर 2002  
 सोमेन जश (51775डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2002  
 विक्रम नेहरू (51776वाई), 01 जनवरी 2001/16 अक्टूबर 2002  
 एन वर्धाराज (51777जेड), 01 जनवरी 2001/01 जनवरी 2003  
 अजीत पाल सिंह (51778ए), 01 जनवरी 2001/16 जुलाई 2002  
 हितेश कुमार (51779बी), 01 जनवरी 2001/01 दिसम्बर 2002  
 रंजीत गब्रीइल (51780एफ), 01 जनवरी 2001/01 जुलाई 2002  
 ए कोट के (51791एफ), 02 जुलाई 2001/02 अक्टूबर 2003  
 अमरेन्द्र कुमार (51792एच), 02 जुलाई 2001/17 मार्च 2003  
 सागर ए हसमनीरत (51793के), 02 जुलाई 2001/02 अप्रैल 2003  
 संदीप कुलकर्णी (51794एन), 03 जुलाई 2001/03 मार्च 2003  
 शेख अकबर अली (51795आर), 06 जुलाई 2001/06 जून 2003  
 जी नरेश (51796टी), 06 जुलाई 2001/21 अगस्त 2003

जार्ज मैथ्यू  
 उप निदेशक (सी एवं जे)  
 कार्मिक निदेशालय

#### वायु सेना

सं. 632, दिनांक 30 नवम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना  
 प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टीनेंट से मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में  
 फ्लाइट लेफ्टीनेंट आर मिश्रा (22614) प्रशा., 19 अप्रैल 2004

#### प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टीनेंट के रैंक में

सुश्री निर्मला त्यागी (25692), शकुन्तला इतिबरूआ (25693),  
 श्रीमती अजंली अय्यर (25694), सुश्री सुसमिता मोहपात्रा (25695),  
 श्रीमती सीमा नन्दकुमार (25696) 19 जून 2003 से

#### मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टीनेंट के रैंक में

श्रीमती आभा तिवारी (25275), सुश्री सीमा दहिया दिनांक 19 जून 2003 से

संजीव श्रीवास्तव  
 स्क्वाड्रन चीफ  
 डीडीपीओ 3 (डी)

#### सेना शाखा

सं. 633, दिनांक 25 नवम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति देते हैं :--

#### प्रादेशिक सेना

#### सेवानिवृत्ति

ले. कर्नल (सि. ले.) वी कार्मलस (टीए-41605), इंजीनियर्स, 31 जुलाई 2004

एम एल शर्मा  
 अवर सचिव

#### अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 634, दिनांक 25 नवम्बर 2004.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष के होने पर, अनु एवं वि संगठन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्री एस सी मल्होत्रा 30 सितम्बर 2004 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं (और 01 अक्टूबर 2004 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गए हैं)।

सन्तोष दासगुप्ता  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

#### सेना शाखा

सं. 635, दिनांक 30 नवम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना  
 स्थायी कमीशन

मेजर जनरल जी सी वरुआ (एमआर-04602एल), ए एम सी/पी सी, 30 नवम्बर 2003 (अपरान्क)

ब्रिगेडियर सी टी रतनचन्दानी (एमआर-02270एन), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ब्रिगेडियर एस सी मोहन्ती (एमआर-02937के), ए एम सी/पी सी, 30 नवम्बर 2003 (अपराह)

ब्रिगेडियर ए के सिन्हा (एमआर-03937डब्ल्यू), ए एम सी/पी सी, 31 दिसम्बर 2003 (अपराह)

ब्रिगेडियर एस सी शर्मा (एमआर-03482एल), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ब्रिगेडियर बी के तनेजा (एमआर-02568एक्स), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ब्रिगेडियर के जे फिलपोस, वी एस एम (एमआर-03429ए), ए एम सी/पी सी, 31 दिसम्बर 2003 (अपराह)

कर्नल एम एस दाबरा (एमआर-02279एच), ए एम सी/पी सी, 30 नवम्बर 2003 (अपराह)

कर्नल आर के ठक्कर (एमआर-02689वाई), ए एम सी/पी सी, 31 दिसम्बर 2003 (अपराह)

कर्नल यू पी देशपाण्डे (एमआर-02949वाई), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

कर्नल टी वी टोमी (एमआर-03652के), ए एम सी/पी सी, 31 दिसम्बर 2003 (अपराह)

ले. कर्नल सर्व सूरूप (एमआर-02779ए), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ले. कर्नल एस एन जोशी (एमआर-03383एच), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ले. कर्नल के पी मनराई (एमआर-02829ए), ए एम सी/पी सी, 31 अक्टूबर 2003 (अपराह)

ले. कर्नल अनिल जानी (एमआर-04620एन), ए एम सी/पी सी, 30 नवम्बर 2003 (अपराह)

ले. कर्नल (श्रीमती) एम वी पैनोली, वी एस एम (एमआर-07124एक्स), ए एम सी/पी सी, 31 नवम्बर 2003 (अपराह)

एम. श्रीवास्तव

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 636, दिनांक 25 नवम्बर 2004—भारत के राजपत्र सं. 2, दिनांक 10 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 29, दिनांक 15 दिसम्बर

2003 शीर्षक नियमित सेवा उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री" और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर :

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-418994एच), 10 सितम्बर 2003\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाएगी)

पद जाए :

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-418994एच), 10 सितम्बर 2003\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2003 से दी जाएगी)

के स्थान पर :

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-418756एच), 04 अक्टूबर 2003\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)

पद जाए :

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-418756डब्ल्यू), 04 अक्टूबर 2003\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)

जोस बोमस

अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं. 637, दिनांक 30 नवम्बर 2004—भारत के राजपत्र में दिनांक 12 अप्रैल 2003 के शीर्षक नियमित सेवा स्थाई कमीशन एवं उप-शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में अधिकारियों के नाम के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाता है :—

06 नवम्बर 2002

के एस वर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस इसी

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

शुद्धि-पत्र

सं. 638, दिनांक 30 नवम्बर 2004—(जेसी-185929डब्ल्यू) सूबेदार मेजर राजबीर सिंह, एडी आर्टी, (एसएल-4740एम, लेफ्ट, टी इ ओ (ए

डी आर्टी) और जेसी-174829एल सूबेदार अनुपम गुप्ता, इंजीनियर्स (एसएल-4744एच, लेफ्ट ए ई ई बी/आर/ए एस डब्ल्यू को स्थायी आयोग (विशेष सूची) के अंतर्गत वरिष्ठता का दिनांक 5 जुलाई 2003 से न्यायालय के आदेशानुसार लेफ्टिनेंट का पद 1993 कोट के अन्तर्गत दिया गया था, जिसे 1993 कोट के क्रम सहयोगियों के साथ 5 जुलाई 2003 से बदलकर 30 अप्रैल 1994 कर दी गई है। तदनुसार जेसी-185929डब्ल्यू सूबेदार मेजर राजबीर सिंह, एडी आर्टी (एसएल-4740एम, लेफ्ट टी ई ओ (ए डी आर्टी) की वरिष्ठता जेसी-144098एन सूबेदार के एम पाण्डुरंग, इंजीनियर्स (एसएल-4120डब्ल्यू, लेफ्ट, क्यू एम) के नीचे और जेसी-200340एम सूबेदार कृष्णकान्त झा, आर्टी (एसएल-4121वाई, लेफ्ट, टी ई ओ, आर्टी) के ऊपर और जेसी-174829एल सूबेदार अनुपम गुप्ता, इंजीनियर्स (एसएल-4744एच, लेफ्ट, ए ई ई बी/आर/ए एस डब्ल्यू की वरिष्ठता जेसी-174795एच नायब सूबेदार नरेश कुमार गोयल, इंजीनियर्स (एसएल-4141एम सैकिन्ड लेफ्ट, ए ई ई/बी आर के नीचे और जेसी-174790 के नायब सूबेदार पृथपाल सिंह भाटिया, इंजीनियर्स (एसएल-4142पी सेकण्ड लेफ्ट, ए ई ई/बी आर के ऊपर 1993 की रिक्तियों में शामिल किया जाता है जो कि राजपत्र अधिसूचना संख्या 459 दिनांक 15 जुलाई 95 को प्रकाशित किया गया।

2. उपरोक्त अधिकारी का नाम राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2004 को प्रकाशित हुआ, से हटया जाता है।

अरविन्द कुमार

मेजर

उप सह सेना सचिव/डीएएमएस-8बी

भारतीय वायु सेना

शुद्धि-पत्र

सं. 639, दिनांक 30 नवम्बर 2004--रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11 प्रबिष्टि संख्या 158 के सन्दर्भ में जो कि राजपत्र में वायु सेना के अन्तर्गत लेखा शाखा में दिनांक 15 मार्च 03 को प्रकाशित की गई थी। नीचे लिखे गए अफसर के नाम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :--  
के लिए :

फ्लाईंग अफसर वी वेंकटरमन (26157एस) लेखा

पद जाय :

फ्लाईंग अफसर वी वेंकटरमन (26157एस) लेखा

संजीव श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ 3(डी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th December 2004

No. 614, dated 25th November 2004.—The President is pleased to appoint Shri Shilabhadra Banerjee, IAS(AP:71), Financial Adviser (Acquisition) and Member, Defence Procurement Board and Additional Secretary, Ministry of Defence as Additional Secretary (Acquisition), Department of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 28.10.2004(FN) until further orders, by temporarily downgrading the post of Special Secretary (Acquisition).

The President is pleased to appoint Shri Y.M. Dixit, Works Manager, Heavy Vehicle Factory, Avadi, as Contract Purchase Officer (CPO) in the Deptt. of Defence Production, Ministry of Defence for a period of 03(three) years w.e.f. 11.10.2004(FN) up to 10.10.2007 or until further orders, whichever is earlier.

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

## (FINANCE DIVISION)

No. 615, dated 26th November 2004.—The President is pleased to appoint Smt. Sukhpal Walia, Grade 'C' Stenographer borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-hoc basis in this Division with effect from 25.10.2004 to 31.12.2004, or till a regular officer becomes available or till further orders whichever is earlier.

M.C. LUTHER  
Dy. Fin. Adviser(E)

## RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 616, dated 25th November 2004.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rule 2001 from 25 Aug 2004 to 23 Feb 2005 or till regular incumbents become available or till retirement whichever is earlier :—

Shri Dev Raj  
Shri Duli Chand  
Shri Ragu Raj Singh  
Shri S.K. Bahl  
Shri R.K. Sharma  
Shri Prem Singh  
Smt. R. Sandhanwalia  
Shri G.S. Verma  
Shri D.R. Sharma  
Shri S.C. Malhotra

(Authority: A/47922/SO/7(8)/2004/CAO/P-1/58 dated 30 Sep 2004)

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

## (ARMY BRANCH)

No. 617, dated 30th November 2004.—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)  
PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 14 Jun 2003)

The undermentioned Gentlemen Cadets of TES-01 Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 14 Jun 2003 under the provisions of AI 3/99.

Name, IC No., Arm/Service

Gagan Singh (63234Y), Engrs  
Prabal Srivastava (63235F), Sigs  
Yogesh Mehta (63236K), Engrs  
Ashutosh Kumar (63237M), Engrs  
Sanjeev Narula (63238P), EME  
Ashish Khattri (63239X), Engrs  
Vipul Agarwal (63240M), Sigs  
Rohit (63241P), EME  
Manish Pathak (63242X), Engrs  
Ruchien Singhal (63243A), Engrs  
Gaurav Singh (63244H), EME  
Samar Sirohi (63245L), Sigs  
Sumit Prakash Gupta (63246N), EME  
Arvind Jadli (63247W), Engrs  
Abhinav Kumar Chaudhri (63248Y), EME  
Adheesh Sinha (63249F), EME  
Bhavishya Kashyap (63250W), Sigs  
Kushlendra Tyagi (63251Y), EME  
Jaikrishan Mhaske (63252F), Engrs  
Tumu Sara Chandra (63253K), EME  
Sudeep Mohan Rawat (63254M), Engrs  
Manish Kokel (63255P), Sigs  
Chinmaya Mund (63256X), EME  
Vikhyat Garg (63257A), Sigs  
Gaurav Srivastava (63258H), Sigs  
Aniruddha Bose (63259L), Sigs  
Anil Ranakoti (63260A), Engrs  
Amit Singh (63261H), EME  
Sharangpani Apurva Sanjeev (63262L), EME  
Vivek Yadav (63263N), Engrs

Sandip Kumar Das (63264W), Sigs  
 Surajit Sinha Roy (63265Y), Engrs  
 Saurabh Sood (63266F), Sigs  
 Pillai Sunil Shankar (63267K), Engrs  
 Ashish Anand (63268M), EME  
 Mohit Gogna (63269P), Engrs  
 Akshay Kapoor (63270K), Sigs  
 Rajesh Unnikrishnan (63271M), Engrs  
 Pranav Mohotra (63272P), Sigs  
 Sanjeev Kumar Singh (63273X), EME  
 Kalra Rishabh Ravinder (63274A), EME  
 Abhishek Agarwal (63275H), Engrs  
 Khedkar Hrishikesh Arun (63276L), Engrs

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The undermentioned officers of SSC (Tech)-20 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 1/93. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 20 Mar 2004. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 20 Mar 2002 under SAI I/S/94 as amended :—

Name, SS No., Arm/Service

Vishal Arora (SS-40508M), EME  
 Ravi Prakash (SS-40509P), EME  
 Kartik (SS-40510K), Engr  
 Sudershan Singh Yadav (SS-40511M), EME  
 Prashant Patil (SS-40512P), Engr  
 Rajeev Singh Pawaiya (SS-40513X), Engr  
 Anshuman Vikram Singh (SS-40514A), EME  
 Praveen Kumar (SS-40515H), Sigs  
 RS Shyam (SS-40516L), Sigs  
 Rahul Raghuvanshi (SS-40517N), Sigs  
 Raghu S (SS-40518W), Sigs  
 Anuj Bindra (SS-40519Y), EME  
 Dilip Reddy G (SS-40520N), Engr  
 Amit Sehgal (SS-40521W), Sigs  
 Jiju Varghese (SS-40522Y), EME

Satya Sreenivas Valluri (SS-40523F), Engr  
 Sadanand Byali (SS-40524K), EME  
 Kumara Keshav B K (SS-40525M), Sigs  
 Anuja Kumar Acharya (SS-40526P), Engr

ARVIND KUMAR  
 Maj  
 DAMS 8B

(NAVY BRANCH)  
 INTEGRATED HQRS—MOD (NAVY)

No. 618, dated 25th November 2004—The President is pleased to appoint Smt. Meena Mendiratta, Personal Assistant as Private Secretary (Group 'B'/Gazetted Pay Scale Rs. 6,500—10,500/-) in the AFHQ Stenographers Service w.e.f. 30 Apr 2004 on the basis of her selection in Limited Departmental Competitive Examination conducted by UPSC in the year 2002.

The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 6500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 30.09.2004 to 23.02.2005 or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :

- (a) Shri Shiv Kumar
- (b) Shri GS Sehgal
- (c) Shri Rameshwar Prasad

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA  
 Dy. Chief Administrative Officer (A)

## (AIR BRANCH)

No. 619, date 30th November 2004—The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 20/76.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)  
 BRANCH

Fg Offr Peela Chandra Shekar (27938), S Raghavendran (27939), Jayaprakash (27940), Quadri Syed Shah Imran Ullah (27941), Bijendra Pandey (27942), Amit Mallick (27943) wef 05 Jun 2004.



### AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Pawan Kumar Bhardwaj (27944), Kalaskar Pradeep Haribhau (27945), K Rajendran (27946), Thomas John (27947) wef 05 Jun 2004.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 17 Jun 2000.

### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Ranpreet Singh Sodhi (26082), Amit Kumar Sangwan (26100) and Charanjiv Singh (26109) wef 17 Jun 2004.

The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation for one year) to the undermentioned Flt Cds in the rank of Fg Offr wef the date as mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay with effect from the date of grant of Permanent Commission & Brevet (On Probation) i.e. 21 Dec 2002.

### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Tanmoy Nandy (27238) wef 21 Dec 2002

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (On Probation) granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

### INDIAN AIR FORCE

#### AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Deepak Krishnani (27117), Dheeraj Yadav (27331), Talsaniya Hirenkumar Mansukhbhai (27332), Mukesh Yadav (27333) wef 05 Jan 2004.

#### AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Vikas Phalswal (27144), MJ Balamurugan (27393), Santhosh Kumar Vayakodan (27394), Viriyala Raghavendra Kishore (27395), Ramesh Valeri (27396), Shashank Sharma (27397), Sanu Nair KS (27398), Ansuman Samajpai (27399), Sunil Kumar Pandey (27400), L Rajagopal (27401), Rajender Singh (27402), Ponnappa MB (27403), Kshitij Vashishtha (27404), Gaurav Pratap (27405), Vikram Chatta (27406), Shahab Ahmad (27409), Aravindh Ramakrishnan (27410),

Sandeep Yadav (27411), Tanuj Verma (27412), K Jayandan (27413), Moirangthem Amarjit Singh (27414), Gaurav Sharma (27415), Boon Mari Joseph Antony L (27416), Satish Kumar (27432) wef 05 Jan 2004.

The President is pleased to terminate the Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/22258/1/PO-3(A)/1611/DOIA/D (Air-III) dated 19 Oct 82 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

### INDIAN AIR FORCE

#### AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Siddhartha Raj Paliwal (27310), Gajendra Pratap Singh (27311), Vivek Chaturvedi (27312), Mohit Sharma (27313), Kumar Pranshu (27314), Praveena Kumar Arlagadda (27315), M Dilli Babu (27316), B Karthikeyan (27317), M Karthikeyan (27318), Shashidhar (27319), Praveen Narasimhamurthy Donni (27320), Suvin Kumar SV (27321), Prashant Kumar Sharma (27322), Prasanna R Badiger (27323), Rajkumar P (27324), C Clement Chelliah Anantharaj (27325), Praveen Prabhakaran Nair (27326), Ravindra Agarwal (27327), Ramanath Harshan P (27328), Jothi Ravindra (27329), Abhishek Bansal (27419), Sathish S (27424), Kodali Jayarajshekhar Amarnath (27425), Muvankara Muralidhar (27429), Prasoon Prabhakaran (27430), Anil Kumar P (27431) wef 05 Jan 2004.

#### AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Perwaiz Aslam (27334), Sri Raman Muralidharan (27335), Prabodh Kumar Udaya Kumaran (27336), Pratyush Anand (27337), Mohit Kumar Verma (27338), Gaurav Shukal (27339), Pritam Kumar (27340), Gaurav Sharma (27341), Kamlesh Kumar Jha (27342), Jayaprakash Prashanth (27343), Shivendra Nath (27344), Avinash Dubey (27345), Dharam Veer Yadav (27346), Chaitanya AGN (27347), Charles Solomon (27348), B Karthik (27349), Sankararaman Ramachandran (27350), Shanmugam Rajesh (27351), Subramanian Krishnamurthy (27352), Maddheker Sreenivasulu (27353), Pankaj Kumar Dey (27354), Giridhar Sridhar (27355), Chaitanya Pavan Voleti (27356), Santoshkumar Chavan (27357), Deepak Vyas (27358), Kishore N (27359), Saboor Ahmed (27360), Kiran Krishnan (27361), Abhishek Premi (27362), Chaket Gulati (27363), Sukhwinder Singh (27364), Madhur Thapliyal (27365), Sidharath Sharma (27366), S Prasad (27367), Vikram Singh Ullshai (27368), Prateek Vashishtha (27369), N Praveen (27370), Wangkheimayum Khelenjit (27371), Saravanan Selvaraj (27372), Pankaj Yadav (27373), Jayaseelan Maria Cladius (27374), Sudipta Mukherjee (27375), Perla Venkata Rajesh (27376), Kiran Kumar Kenchanakuppe Paramashivaiah (27377), Oruganti Sudhir Babu (27378), Mohammad Javid Khan (27379), Anil Pant (27380), Thounaojam Brojen Singh (27381), Anoop Raj Varshney

(27382), Muraleeswaran Rajendran (27383), Ajith Kumar Kayyath Yatheendra Das (27384), Deepak Garg (27385), Sachin Sonna (27386), Abdullah Zahid (27387), Hiren Pramodbhai Kothari (27388), Kesava Suresh Kumar (27389), Pritish Mishra (27390), Gurjap Singh (27391), Avijit Singh Chauhan (27392) wef 05 Jan 2004.

S. SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3(D)

(AIR BRANCH)

No. 620, dated 30th November 2004.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer wef the date stated against his name :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr Tanmoy Nandy (27238) wef 21 Dec 2002.

S. SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(ANIMAL TRANSPORT)

No. 621, dated 25th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Substantive Naib Risaldar (Ash)

Dfr Nirmal Chandra Dutta (No. 6483452X now JC-680737X), 18 Aug 2004/15 May 2004\*

Dfr Karan Singh (No. 6484192K now JC-680738A), 12 Aug 2004/15 May 2004\*

Dfr LRC Jagtap (No. 6470840W now JC-680739H), 15 May 2004/15 May 2004\*

Dfr Janki Prasad Soni (No. 6470640A now JC-680741A), 09 Aug 2004/01 Jun 2004\*

Dfr Bhagirath Gouda (No. 6470022P now JC-680742H), 30 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Dfr Bchcha Prasad (No. 6470662Y now JC-680743L), 13 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Dfr Kedar Nath Mishra (No. 6471050N now JC-680744N), 13 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Dfr Ram Dass Kurmi (No. 6471187A now JC-680745W), 12 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Dfr Rajbir Singh (No. 6471191H now JC-680746Y), 12 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Dfr Shiv Muni Ram (No. 6471332M now JC-680747F), 26 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Dfr Ved Pal (No. 6375541M now JC-680748K), 01 Aug 2004/01 Aug 2004

Dfr Sohan Singh (No. 6471398H now JC-680749M), 01 Aug 2004/01 Aug 2004

\*Gtd antedate seniority without effect on pay and alices wef.

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Sikander Singh (JC-255876H), 10 May 2004/01 May 2004\*

Subedar Ram Niwas Yadav (JC-226514Y), 01 May 2004

Subedar Udai Singh Yadav (JC-255177X), 01 Jul 2004

Subedar Harnam Singh (JC-256771L), 01 Jul 2004

Subedar Amal Kumar Kundu (JC-296056L), 01 Aug 2004

Subedar Sivadasan P (JC-226659K), 01 Aug 2004

Subedar Sharvan Kumar Rajput (JC-296049P), 01 Aug 2004

To be Substantive Subedar Major (Clk)

Subedar Dharambir Singh (JC-255938Y), 06 Aug 2004/01 Aug 2004\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Ram Surat (JC-297855N), 01 Nov 2003

Nb Sub Patil Yashavant Bhimrao (JC-297987F), 01 Nov 2003

Nb Sub Naresh Chander (JC-298335P), 06 Jun 2004/29 Feb 2004\*

Nb Sub Chandra Sekharan Nair S (JC-297996H), 02 Jun 2004/01 Mar 2004\*

Nb Sub Hari Krishna (JC-297608A), 05 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Shyam Sunder Mandar (JC-298081H), 22 Jun 2004/26 Apr 2004\*

Nb Sub Shankar Lal (JC-297777F), 09 Jun 2004/01 May 2004\*

Nb Sub Mangla Ram Deka (JC-297758W), 09 Jul 2004/06 May 2004\*

Nb Sub Ghyan Singh (JC-297575A), 07 Jun 2004/11 May 2004\*

Nb Sub Daya Kishan (JC-297684M), 01 Jun 2004

Nb Sub Shivanandan Paswan (JC-297634Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Mane Shantaram Yeshvant (JC-297303A), 03 Jul 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Raja Ram Yadav (JC-297262F), 03 Jul 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Harpal (JC-298087K), 10 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Shiv Pal (JC-298102N), 07 Jul 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Joseph PP (JC-298384F), 18 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Ravinder Singh (JC-297955Y), 12 Jul 2004/10 Jul 2004\*

Nb Sub Pritam Singh (JC-297893K), 20 Jul 2004/11 Jul 2004\*

Nb Sub Prem Chand Sharma (JC-298195N), 11 Aug 2004/21 Jul 2004\*

Nb Sub Roshan Lal Yadav (JC-297797P), 14 Aug 2004/25 Jul 2004\*

Nb Sub A Albert (JC-298324H), 14 Sep 2004/30 Jul 2004\*

Nb Sub Sarbjit Singh (JC-297452N), 28 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Jagtar Singh (JC-297827F), 08 Sep 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Ratan Giri (JC-298291H), 08 Sep 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Chaman Lal (JC-298375W), 15 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Muraleedharan AO (JC-298461F), 13 Sep 2004/07 Aug 2004\*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-297739L), 07 Sep 2004/08 Aug 2004\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub M Chandra Sekaran (JC-297524M), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Patti Venkatesvarlu (JC-297500H), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Hari Singh (JC-298568W), 25 Aug 2004/11 Aug 2004\*

Nb Sub Ram Avtar (JC-298500P), 01 Sep 2004

To be Substantive Subedar (CIK)

Nb Sub Vinod Kumar Upadhyay (JC-296937K), 01 July 2004

Nb Sub Satpal Singh Gill (JC-297005K), 01 Jul 2004

Nb Sub Ram Niwas (JC-297006M), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub MD Badir Ali (JC-297085M), 01 Sep 2004

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Bakul Chandra Sikder (JC-297627L), 14 Jul 2004/01 Jul 2004\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

## CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar Major (Y of S)

Sub Sat Narain (JC-215287K), 10 Jul 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st June 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Manjit Singh (JC-220458P), 01 Aug 2004

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Ram Singh Meena (JC-218925H), 14 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Aug 2003 without effect on pay and allowances)

Sub Mohan Singh Verma (JC-218933F), 02 Aug 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Aug 2004 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar Major (S K T)

Sub Hawa Singh (JC-369782L), 01 Jul 2004

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub S R S Prakash Rao (JC-369335F), 05 Jan 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances)

Sub C S Prasad (JC-369362L), 02 Mar 2003

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Mar 2003 without effect on pay and allowances)

Sub Chintamani Singh (JC-369746A), 12 Jul 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Gopal Krishna Bandyopadhyay (JC-369820W), 02 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st May 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Mathew T (JC-369821Y), 01 Jun 2004

Sub Ram Prakash (JC-369830A), 05 Jul 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Ajit Kumar Dutta (JC-369837K), 01 Aug 2004

Sub Abhya Nand Pandey (JC-369840K), 01 Aug 2004

To be Nb Subedar (Y of S)

Hav Hera Babu Singha (No. 15354157Y now JC-375483H), 1st Mar 2004

To be Nb Subedar (OP Spec)

Hav Ram Chandra Chavhan (No. 14254270H now JC-375565L), 1st May 2004

Hav Nirmal Kumar B (No. 14249978Y now JC-375569F), 1st May 2004

Hav Shisu Pal Singh (No. 14254657L now JC-375570W),  
1st May 2004

Hav Upendra Kumar Singh (No. 14254766X now JC-375573K), 1st June 2004

Hav Pradip Kumar Singh (No. 14254779P now JC-375574M), 1st June 2004

Hav A K Sharma (No. 14244290H now JC-375585Y), 1st July 2004

Hav Ram Niwas (No. 14242997F now JC-375587K), 1st July 2004

Hav Joginder Singh (No. 14248698Y now JC-375588M), 1st July 2004

Hav Hari Kishan (No. 14252201N now JC-375589P), 1st July 2004

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14254124H now JC-375590K), 1st July 2004

Hav Jai Narain (No. 14254651K now JC-375591M), 1st July 2004

Hav Dinesh Chandra Joshi (No. 14253977N now JC-375592P), 1st July 2004

To be Nb Subedar (Cik GD)

Hav Som Raj (No. 14254330M now JC-375546A), 3rd June 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st June 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Brahma (No. 14254815P now JC-375547H), 1st June 2004

Hav Hayat Singh (No. 14255446P now JC-375548L), 1st June 2004

Hav Ram Phal Sharma (No. 14255480P now JC-375549N), 11th June 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st June 2004 without effect on pay and allowances)

Hav A K Panda (No. 14257332H now JC-375576X), 1st June 2004

Hav P C Pattanayak (No. 14255612X now JC-375577A), 1st June 2004

Hav Alekh Prasad Sahoo (No. 14257333L now JC-375593X), 1st July 2004

To be Nb Subedar (SKT)

Hav Daya Chand (No. 14256146A now JC-375595H), 1st July 2004

To be Nb Subedar (GD)

Hav Ashok Kumar (No. 14239287Y now JC-375509M), 1st Apr 2004

Hav Ganesh Singh (No. 14243882A now JC-375515A), 1st Apr 2004

Hav Bharat Bhushan (No. 14246237W now JC-375527P), 1st May 2004

Hav Mithilesh Thakur (No. 14241335M now JC-375560M), 1st June 2004

Hav Anant Ram (No. 14230690K now JC-375596L), 1st July 2004

Hav Sukhbir Singh Rana (No. 14239385Y now JC-375597N), 1st July 2004

Hav Suvinder Singh (No. 14299355L now JC-375598W), 1st July 2004

Hav Mahabir Prasad (No. 14242205W now JC-375599Y), 1st July 2004

Hav Dilbag Singh (No. 14242454P now JC-375600H), 1st July 2004

Hav Balbir Singh (No. 14242497K now JC-375601L), 1st July 2004

Hav Rajendra Prasad (No. 14243047Y now JC-375602N), 1st July 2004

Hav Satish Chand (No. 14243280W now JC-375603W), 1st July 2004

Hav Sri Ram Maharana (No. 14247238L now JC-375605F), 1st July 2004

Hav Jalpu Ram (No. 14242247H now JC-375617W), 1st July 2004

R CHATURVEDI  
Under Secy.

No. 622, dated 26th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions.

**REGULAR ARMY  
DEFENCE SECURITY CORPS**

To be Nb Sub (GD)

Hav Rishi Ram (No. 4050792A now JC-841591H), 17th July 2004\*

Hav Hardev Singh (No. 13738743Y now JC-841592L), 07th June 2004\*

Hav Laxman Yadav (No. 13606957H now JC-841600Y), 16th June 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Hardev Singh (No. 7236459H now JC-841604P), 17th May 2004\*\*

Hav Hussain Alam Khan Shah (No. 2862540P now JC-841615F), 17th May 2004\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Jot Singh (No. 4050776H now JC-841628Y), 04th June 2004\*\*\*

Hav Leeladhar Sharma (No. 10388922Y now JC-841629F), 09th June 2004\*\*\*

Hav Dharam Pal (No. 10133976W now JC-841633K), 09th June 2004\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 4046444F now JC-841656N), 26th Aug 2004\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2004 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Bhosle Bhagwan (No. 10118466X now JC-841640A), 23rd June 2004\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2004 without effect on pay and allowances)

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

No. 623, dated 25th November 2004—

#### REGULAR ARMY ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar Major

Sub Maj A Mary Jhon (JC-207049H), 08th Mar 2004/01st Mar 2004\*

Date of seniority

V. K. KAPOOR  
Under Secy.

No. 624, dated 25th November 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY INFANTRY

##### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major

Sub Verghese Thomas (JC-201562N), 01st Sep 2004

To be Substantive Subedar

Nb Sub Brestu Ram (JC-419404L), 01st Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Virendra Kumar Singh (JC-418950L), 02nd Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 07th Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Bahadur Singh (JC-418622X), 28th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances):

Nb Sub Ram Dev Singh (JC-418944X), 25th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagbir Singh (JC-418972K), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajbir (JC-418980H), 01st Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Latpate Balasaheb Shahurao (JC-418981L), 23rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Narayan Ram (JC-418982N), 04th Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Harbhan Singh (JC-418986K), 25th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Subhas Sinha (JC-418991P), 15th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devi Lal (JC-418997W), 10th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Naresh Kumar (JC-418998Y), 10th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Mehar Singh (JC-418999F), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurmej Singh (JC-419015L), 04th Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-419018Y), 04th Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Guler Chand (JC-419032L), 27th Jul 2004\*

- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Puran Chand (JC-419033N), 20th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Chanda Singh (JC-419042P), 27th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Jainath Singh (JC-419063L), 25th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Het Ram (JC-419064N), 25th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Parbhat Singh (JC-419101W), 22nd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Prithvi Singh (JC-419115W), 19th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Balwan Singh (JC-419118K), 26th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Jadhav Jaiprakash Shamrao (JC-419136M), 03rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Bhagat Singh (JC-419137P), 03rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Amar Singh Jat (JC-419138X), 03rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Ram Saran (JC-419156A), 23rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Garje Dashrath Baburao (JC-419189L), 12th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Din Dayal (JC-419202K), 19th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Kripal Singh (JC-419216K), 23rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Jagir Singh (JC-419220M), 12th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Surender Singh (JC-419245Y), 01st Sep 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Surendra Singh (JC-419246F), 23rd Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Puran Singh (JC-419259Y), 23rd Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Baldev Singh (JC-419329M), 13th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Dilbag Singh (JC-419342W), 14th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Subhash Chand (JC-419484N), 28th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Mahajan Singh Verma (JC-419524K), 15th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Dollin Kariyallappa (JC-419526P), 15th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Jhabbu Lal (JC-419543P), 03rd Sep 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Ranjit Singh (JC-419703X), 28th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Kamta Ram (JC-418921W), 24th Jul 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances).  
Nb Sub Virendra Singh Chauhan (JC-419017W), 18th Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nareah Singh Chauhan (JC-419058A), 28th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pratap Singh (JC-419093H), 24th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ramesh Narayan Sutone (JC-419171F), 03rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chhagan Singh Shekhawat (JC-419214Y), 01st Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Tajne Sudhakar Nivruti (JC-419215F), 03rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Risal Singh (JC-419273L), 12th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Aytar Singh (JC-419291N), 01st Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shyam Singh (JC-419306L), 23rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Singh (JC-419307M), 23rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jabar Singh Rathore (JC-419318A), 01st Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sushipal Singh (JC-419364P), 01st Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Saji TG (JC-419569K), 15th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 08th Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prem Chand (JC-419148F), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jai Ram (JC-419155X), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Indra Mani Sinha (JC-419209M), 25th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Govind Ram (JC-419226N), 01st Aug 2004

Nb Sub Amar Singh (JC-419256L), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kamlesh Kumar Singh (JC-419293Y), 18th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chuni Lal Chauhan (JC-419375F), 13th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sunder Singh (JC-419380M), 13th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rup Chand (JC-419393K), 13th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Singh Shekhawat (JC-419403H), 01st Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Tilak Raj (JC-419470N), 13th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Singh (JC-419472Y), 13th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Singh (JC-419530X), 01st Aug 2004

Nb Sub Jagbir (JC-419580H), 15th Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hans Raj (JC-418773W), 01st Sep 2004

Nb Sub Gunja Gurung (JC-418774Y), 01st Sep 2004

Nb Sub Daulat Ram (JC-418783A), 01st Sep 2004

Nb Sub Shaym Sunder (JC-419086M), 01st Sep 2004

Nb Sub Bachan Singh (JC-419158L), 02nd Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mehetre Vishvanath Tukaram (JC-419222X), 01st Sep 2004

Nb Sub Madhusudan Bandhopadhyay (JC-419285A), 01st Sep 2004

Nb Sub Pooran Singh, SM (JC-419392F), 01st Sep 2004

Nb Sub Parkash Chand (JC-419537F), 01st Sep 2004

Nb Sub Shyam Singh (JC-419545A), 01st Sep 2004

Nb Sub Rajdev Yadav (JC-419570Y), 01st Sep 2004

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub Clk Masant Singh Panwar (JC-419002N), 09 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subedar (Clerk)-wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Om Prakash Ojha (JC-419003W), 01 Jul 2004

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 625, dated the 25th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

**TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION**

To be Maj

Capt J S Anand (TA-42234), infantry, 22 Dec 1998

Capt Ajay Krishna (TA-42383), Infantry, 26 Feb 2003

M. L. SHARMA  
Under Secy.

No. 626, dated the 30th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY  
(PERMANENT COMMISSION)  
(ARMY MEDICAL CORPS)**

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

Sujan Singh (MR-03256N), 30 Jun 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jun 2004.

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

RR Phulgaonkar (MR-04007F), 03 Feb 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 13 May 2003.

SC Tomar (MR-04636Y), 28 Jan 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Aug 2003.

A Khetarpal (MR-04238X), 11 Mar 2004 with notional

seniority without effect on pay and pension from 01 Oct 2003.

Rajvir Bhalwar (MR-03952L), 27 Feb 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 18 Oct 2003.

Major (& equivalent) to be Lt Col (& equivalent)

SS Yadav (NTR-16492N), 27 Mar 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Mar 2004.

M. SRIVASTAVA  
Brig  
Dy. DGAFMS(P)

No. 627, dated the 29th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Substantive Col

IC 36298 B K Goswami, Arty, 01 Dec 2002

IC 34341 NRK Babu, Engr, 01 Dec 2002

IC 34337 AK Madholkar, AC, 01 Dec 2002

IC 34432 Paramvir, Arty, 01 Dec 2002

IC 34460 Sher Singh, AC, 01 Dec 2002

IC 34592 M Panigrahi, Inf, 01 Dec 2002

IC 34606 BPV Koshy, AOC, 01 Dec 2002

IC 34484 S P Kabra, ADA, 01 Dec 2002

IC 36903 R S Randhawa, Arty, 01 Dec 2002

IC 36905 MSS Krishnan, AOC, 01 Dec 2002

IC 36958 B A Prasad, Inf, 01 Dec 2002

IC 36977 Amitava Poddar, AC, 01 Dec 2002

IC 34760 P Bakshi, AC, 01 Dec 2002

IC 34781 SP Pany, Sigs, 01 Dec 2002

IC 34796 KJS Rana, AOC, 01 Dec 2002

IC 34800 SS Jadhav, Inf, 01 Dec 2002

IC 34828 A J Piroj, Inf, 01 Dec 2002

IC 34843 V Taneja, AC, 01 Dec 2002

IC 34844 N A Subramanian, Arty, 01 Dec 2002

IC 34888 R P Sahi, Inf, 01 Dec 2002

IC 34920 A S Bajwa, Arty, 01 Dec 2002

IC 34982 B B Khurana, Inf, 01 Dec 2002

IC 34986 C V Raveendran, AC, 01 Dec 2002

IC 34997 Sunil Bali, Inf, 01 Dec 2002



## Maj to be Substantive Lt Col (By Selection)

IC 39188 R P Singh, ADA, 31 Dec 2002  
 IC 39309 S S Sandhu, Arty, 31 Dec 2002  
 IC 39431 G K Pathak, AEC, 31 Dec 2002  
 IC 41046 S K Kohli, Engrs, 31 Dec 2002  
 SL 2724 M S Bhela, SL (Tech), 31 Dec 2002  
 IC 38724 Atul Handa, Arty, 31 Dec 2002  
 IC 38774 N Audisheshaiah, EME, 31 Dec 2002  
 IC 38857 A K Prehar, ASC, 31 Dec 2002  
 IC 38921 A Ekambaram, EME, 31 Dec 2002  
 IC 40656 A K Singh, EME, 31 Dec 2002  
 IC 39130 R Chopra, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 39140 P S Jaggi, ADA, 31 Dec 2002  
 IC 39157 H V Sharma, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 39176 A Sarin, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 39346 PK Sinha M, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 39371 K Eswaran, EME, 31 Dec 2002  
 IC 35470 A Kundu, AC, 01 Jun 1998  
 IC 35485 Rajiv Talwar, AC, 01 Jun 1998  
 IC 38770 R Setty, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 38864 U Shankar, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 38882 A K Mukherjee, Sigs, 31 Dec 2002  
 IC 38886 R Pant, Inf, 31 Dec 2002  
 IC 38918 A K Sarkar, Arty, 31 Dec 2002  
 IC 35352 B C Kaveriappa, AOC, 01 Jun 1998  
 IC 37280 K N Puri, Arty, 01 Jun 1998  
 IC 37316 PS Mehta, AC, 01 Jan 2000  
 IC 35926 VK Madan, Arty, 01 Jan 2000  
 IC 35991 A Sudheer, Inf, 01 Jan 2000  
 IC 38045 Pradeep Saini, Arty, 01 Jan 2000  
 IC 38046 SJ Singh, Inf, 01 Jan 2000  
 IC 38084 P Srivastava, Arty, 01 Jan 2000  
 IC 38148 MM Dutta, Arty, 01 Jan 2000  
 IC 37466 JS Mehta, Inf, 01 Jan 2000  
 IC 37504 Bhalinder Singh, Inf, 01 Jan 2000  
 IC 38560 BS Chowdhary, AOC, 31 Dec 2000  
 IC 38562 D Saxena, Arty, 31 Dec 2000  
 IC 38565 Deepak Malhotra, ASC, 31 Dec 2000  
 IC 38568 Anil Nanda, Arty, 31 Dec 2000

IC 38580 A Bajpai, Sigs, 31 Dec 2000

IC 38588 SC Mishra, AOC, 31 Dec 2000

IC 35012 V Gopalan, Inf, 01 Jan 1998

IC 35116 Deepak Mehta, Inf, 01 Jun 1998

IC 34412 N Papa Rao, AC, 01 Jun 1998

IC 36000 Alok Batra, Arty, 01 Jan 2000

IC 37374 Sukhjit Singh, Inf, 01 Jan 2000

IC 38088 A Narsimhan, ADA, 01 Jan 2000

## Maj to be Substantive Lt Col (Time Scale)

IC-42201 M Selvamani, Eng, 09 Jun 2004

SL-03108 AM Mazumdar, SL (QM), 20 Jul 2004

SL-03281 Ajmel Singh, EME, 20 Jul 2004

SL-03078 B Mishra, SL(AOC), 25 Jul 2003

SL-03216 Onkar Singh SL(TOT), 20 Jul 2004

SL-03249 Baljinder Singh SL(cipher), 20 Jul 2004

SL-03251 HS Grover, SL (cipher), 20 Jul 2004

SL-03160 S Srinivasan, SL(RO), 20 Jul 2004

SL-03149 Jagdev Singh, SL(RO), 20 Jul 2004

SL-03298 KS Nair, SL(AE), 20 Jul 2004

SL-03246 SSP Singh, SL(cipher), 20 Jul 2004

SL-03104 M Purushothaman, SL(QM), 20 Jul 2004

SL-03172 RS Mandrawal, SL(AO), 20 Jul 2004

SL-03253 RS Dasila, SL(cipher), 20 Jul 2004

IC-42245 KC Sabat, AEC, 09 Jun 2004

IC-45142 MZU Siddiquie, AC, 10 Aug 2004

SL-03189 P Kumar, SL (B/R), 20 Jul 2004

SL-03197 RB Kutty, SL(B/R), 20 Jul 2004

SL-03203 OP Mehta, SL(E/M), 20 Jul 2004

SL-03305 SK Ahlawat, AEC, 20 Jul 2004

SL-03263 SNS Tomar, AOC, 20 Jul 2004

SL-03259 RD Singh, AOC, 20 Jul 2004

SL-03250 SC Mandal, Sigs, 20 Jul 2004

SL-03148 RS Rana, SL(RO), 20 Jul 2004

IC-42082 Panjab Deshmukh, Sigs, 09 Jun 2004

IC-42157 RR Narayanan, Ad Arty, 09 Jun 2004

IC-45268 Deepak Verma, Ad Arty, 25 Apr 2004

IC-42160 Satish Chandra, EME, 09 Jun 2004

• IC-42127 Shafat Khan, EME, 09 Jun 2004

IC-42152 SC Rai, EME, 09 Jun 2004

IC-44018 Vinaya Kumar, EME, 14 Jun 2004

IC-42117 BS Nayal, Inf, 09 Jun 2004

IC-35604 Bijai Singh, Inf, 16 Dec 1999

IC-42053 VK Kapoor, Inf, 09 Jun 2004

IC-41901 KN Prasad, Arty, 09 Jun 2004

IC-38976 Virender Yadav, ASC, 07 Jun 2000

IC-39424 K Kumar, AEC, 13 Dec 2000

IC-39738 SP Mudhalkar, Arty, 13 Jun 2001

IC-40310 M Satti, Arty, 12 Jun 2002

S. S. SINHA  
Dy. Dir.  
DAMS-8A

No. 628, dated the 30th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Cap to be Maj

IC No, Name &amp; Arm

47627 Kuldeep Ahlawat, Inf

—11 Dec 1999

Lt to be Capt

IC No, Name &amp; Arm

47627 Kuldeep Ahlawat, Inf

—11 Dec 1993

55968 Aditya Verma, Arty,

55976 Sumit Bana, EME

—07 Nov 2002

56077 PV Eamesh Babu, AD Arty

—07 Dec 2002

58565 Jagjit Baswana, MF

—12 Dec 2003

58804 Amit Sharma, EME,

58870 Chiranjit Medhi, Arty

—12 Jun 2003

59122 Deepak Bora, Engrs,

59384 Bishanjit Singh Grewal, Engrs,

59526 P Joseph Shalujit, Sigs

—11 Dec 2003

Sl.No, Name and Arm

04142 Pritipal Singh Bhatia, Engrs

—14 Jan 2000

04613 Mohan Singh, Engrs,

04614 Birendra Singh Nirbhay, Engrs

—24 Apr 2004

SC No, Name and Arm

00119 Bhagwan Dass, AOC

—12 Sep 2002

IC No, Name and Arm

59082 Harpinder Singh Dhillon, Inf,

59165 M Arjun Rangan, Arty,

59170 Rajesh Jaglan, Arty,

59211 Kushal Ganguly, EME,

59523 Rajnish Kumar Maahi, Arty

—11 Dec 2003

59707 Nishant Chandel, Inf,

59867 Piyush Kumar Gupta, Engrs,

59912 Arun Malik, AOC

—10 Jun 2004

Sl. No, Name and Arm

04642 Murlidhar, Engrs

—24 Apr 2004

IC No, Name and Arm

59603 Rahul Faujdar, Arty,

59608 Abhijeet Chandrakant Tembe, Inf,

59634 Shashikanth Thumma, Arty,

59665 Amit Ahlawat, AC,

59716 Vishal Rawat, Inf,

59718 Kavuru Bhanu Prakash, Inf,

59754 Deepak Patial, AOC,

59786 Damle Swanand Manohar, Int,

59832 Wangkheimayum Sanjiv Singh, AOC,

59860 Rohit Singh Rawat, Inf,

59869 Mandla Jayarami Reddy, Inf

—10 Jun 2004

62484 Siddharth Juyal, Sigs

—11 Jun 2004

2/Lt to be Lt

IC No, Name and Arm

IC 47627 Kuldeep Ahlawat, Inf

—11 Dec 1990

(Pay &amp; Allowances wef 30 Dec 1990)

K. S. VERMA

Jt. Dir.

MS-8C

## (DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 629, dated 30th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri ML Mittal, JTO, CQA(EE), Pune to be JSO in-situ w.e.f. 18 Nov 2003 (F/N).

Shri PS Gill, JTO, SQAE(V), New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Nov 2003 (F/N).

Shri Raghunath, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 18 Nov 2003 (F/N).

Shri MPS Thanthy, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 27 Nov 2003 (F/N).

Shri M Sellamuthu, JTO, QAE(A), Avadi to be JSO at SQAE(A), Chennai w.e.f. 23 Jan 2004 (F/N).

Shri VL Paranjape, JTO, CQAE(EFS), Vizag to be JSO in-situ w.e.f. 23 Jul 2004 (F/N).

Shri BN Nagaraja, JTO, CQA(R), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri Ibrahim Khan, JTO, SQAE(L), Jabalpur to be JSO in-situ w.e.f. 02 Aug 2004 (F/N).

Shri Genda Lal, JTO, HQ DQA(L), New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri Ramji Lal, JTO, HQ DQA(L), New Delhi to be JSO at HQ DQA(N), New Delhi w.e.f. 26 Jul 2004 (F/N).

Shri SS Sethi, STA-I, HQ DQA(WP), New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri VC Mukeem, STA-I, QAE(WE), Kolkata to be JSO at QAE(EFS), Kolkata w.e.f. 30 Jul 2004 (A/N).

Shri RP Sharma, STA-I, CQAE(WS), Mumbai to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri HAG Seikh, STA-I, CQAE(WE), Mumbai to be JSO at QAE(WP), Mumbai w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri EPK Nambiar, JTO, CQA(FFE), Pune to be JSO at CQA(EE), Pune w.e.f. 31 Jul 2004 (F/N).

Shri NN Srivastava, SSA, CQA(T&C), Kanpur to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri JP Singh, JTO, SQAE(GS), New Delhi to be JSO at HQ DQA(S), New Delhi w.e.f. 26 Aug 2004 (F/N).

Shri AK Saha, JTO, SQAE(SA), Ichapur to be JSO at CQA(SA), Ichapur w.e.f. 31 Jul 2004 (F/N).

Shri Ajai Kumar, JTO, SQAE(A), Delhi Cantt to be JSO at SQAE(SA), Kanpur w.e.f. 23 Aug 2004 (F/N).

Shri DK Basak, JTO, SQAE(SA), Ichapur to be JSO at CQA(SA), Ichapur w.e.f. 31 Jul 2004 (F/N).

Shri AD Chatterjee, JTO, DEO, New Delhi to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri C Kurjur, SSA, QAE(ME), Itarsi to be JSO at CQA(ME), Khadki w.e.f. 27 Aug 2004 (F/N).

Shri ML Sulodhia, SSA, QAE(ME), Bhandara to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri NH Sahana, SSA, QAE(ME), Khamaria to be JSO in-situ w.e.f. 26 Jul 2004 (F/N).

Shri S Subramanian, SSA, CQA(ME), Kirkee to be JSO in-situ w.e.f. 20 Jul 2004 (F/N).

Shri M Allimuthu, SSA, SQAE(ME), Aruvankadu to be JSO at QAE(ME), HEF, Khadki w.e.f. 30 Aug 2004 (F/N).

Shri LS Narang, SSA, HQ DQA(A), New Delhi to be JSO at CQAE(MS), Mumbai w.e.f. 30 Aug 2004 (F/N).

Shri Parmananda, JTO, HQ DQA(A), New Delhi to be JSO at HQ DQA(WP), New Delhi w.e.f. 30 Jul 2004 (F/N).

Dr. PARVINDER PAUR

Dy. Secy.

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 630, dated 29th November 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200 :—

## Name, Estt/Lab &amp; Date

Shri Surendra Mahavir Jain, ADRDE, Agra, 01.07.2004

Shri K. Dharmendra Diwakar, ADRDE, Agra, 01.07.2004

Shri Sunil Thapliyal, DEAL, Dehradun, 01.07.2004

Shri Bhupendra Suman, DEAL, Dehradun, 01.07.2004

Shri Savitha D K, DEAL, Dehradun, 01.07.2004

Shri B Siddappaji, DEAL, Dehradun, 01.07.2004

Dr. Pratibha Pandey, DRDE, Gwalior, 01.07.2004

Dr. Paban Kumar Dash, DRDE, Gwalior, 01.07.2004

Dr. Rakesh Bhargava, DRDE, Gwalior, 01.07.2004

Shri MJ Mendki, DRDE, Gwalior, 01.07.2004

Shri Jagdish G Bhujbal, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri SS Bhise, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Mrs. Florence Manuel, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri MP Kulkarni, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri Anil M Barve, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri SB Navale, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri Amiya Kumar Nandi, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri P K Adak, HEMRL, Pune, 01.07.2004

Shri Rajiv Kumar Das, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Rakesh Kumar Aggarwal, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Dan Singh, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Harendra Singh Negi, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Anant Kumar Shukla, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Satish Chandra Verma, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Girish Chandra, SASE, Chandigarh, 01.07.2004

Shri Narendra Kumar, IRDE, Dehradun, 01.07.2004

Shri Vinay Balooni, IRDE, Dehradun, 01.07.2004

Shri Vinay Kumar Sharma, IRDE, Dehradun, 01.07.2004

Shri Pradeep Kumar, IRDE, Dehradun, 01.07.2004

Miss Jumi Hazarika, IRDE, Dehradun, 01.07.2004

Shri CG Subudhi, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Saroj Kumar Pattnaik, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Milan Kumar Pal, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Ghanshyam Adhikari, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Manmohan Sandhu, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Feroze Babu TA, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Pradip Saha, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Chinmay Kumar Nayak, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri A KL Bhagat, ITR, Chandipur, 01.07.2004

Shri Biswajyoti Hazarika, PXE, Balasore, 01.07.2004

Shri Raj Kumar Gangwar, PXE, Balasore, 01.07.2004

Shri A V Kanhai, INS, Shivaji, 01.07.2004

J. K. KHADWAL  
Jt. Director (Pers-8)

#### NAVY BRANCH

#### (PERMANENT COMMISSION)

Ag Lieutenants to be Lieutenants

No. 631, dated 30 Nov 2004.—The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of

the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission, Seniority  
(In months) and Date of promotion as Lt.

Ashutosh (42108-Z), 01.01.2000, 12—1 Jan 2002

C Karmakar (42110-B), 01.01.2000, 11.5—16 Jan 2002

Hari Vijay Pala (42111-F), 01.01.2000, 10—1 Mar 2002

S Sharma (42112-H), 01.01.2000, 12—1 Jan 2002

#### Sub Lieutenants/Ag Lt to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission, Seniority gained (In months) and Due Date of promotion as Lt.

V Karthikeyan (42115-R), 01.07.2000, 12—1 July 2002

Saurav Maiti (42116-T), 01.07.2000, 12—01 July 2002

Dhirender Singh (42118-Y), 01.07.2000, 11.5—16 July 2002

Anurag Sood (42119-Z), 01.07.2000, 11.5—16 July 2002

PK Ravikant (42158-N), 01.01.2001, 12—1 Jan 2003

#### Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission, Seniority—Date of promotion as Lt

Bhise, Shantanu D (42201-K), 01.01.02, 10.5—16 Feb 2004

Das, Shubro (42202-N), 01.01.02, 12—1 Jan 2004

Fernandez, Dominic (42203-R), 01.01.02, 8.5—16 Apr 2004

Gupta, Mohit (42204-T), 01.01.02, 12—1 Jan 2004

Karve, Deepak (42205-W), 01.01.02, 3.0—1 Oct 2004

Kuldeep, AK (42206-Y), 01.01.02, 6.5—16 Jun 2004

Nishant, N (42207-Z), 01.01.02, 2.0—1 Nov 2004

Pillai, RK (42208-A), 01.01.02, 2.5—16 Oct 2004

Mascarenhas, Ranjeeth CM (42209-B), 01.01.02, 7.0—1 Jun 2004

Walia, Sumit (42211-H), 01.01.02, 5.0—01 Aug 2004

**Acting Lieutenants to be Lieutenants**

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission and Date of promotion as Lt

R Parmnani (42060-R), 01.01.99—16 Jan 2001  
J Aditya Singh (42061-T), 01.07.99—1 Jul 2001  
P Yesu Babu (42062-W), 01.07.99—01 Jul 2001  
R Abhinand (42063-Y), 01.07.99—01 Jul 2001  
S Behra (42113-K), 01.01.2000—16 Jan 2002

**Sub Lieutenants to be Lieutenants**

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Sl. No., Personal Number, Name of Sub Lieutenant, Date of commission & Date of promotion as Lieutenant

A Bhardwaj (42134-H), 01.01.2001—1 May 2003  
V Gokhale (42138-T), 01.01.2001—1 Mar 2003  
S Gupta (42139-W), 01.01.2001—1 Jan 2003  
S Karthikeyan (42140-Y), 01.01.2001—16 Jul 2003  
S Komal Kumar (42143-Y), 01.01.2001—16 Jun 2003  
KS Nehra (42146-K), 01.01.2001—1 Jun 2003  
Rohit Pant (42147-N), 01.01.2001—1 Jan 2003  
CS Parmer (42149-T), 01.01.2001—01 Jan 2003  
A Bhadkamkar (42058-K), 01.01.99—01 Jul 2001  
Jim Mathew (42059-N), 01.01.99—16 Feb 2001

**(SHORT SERVICE COMMISSION)****Sub Lieutenants to be Lieutenants**

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission Seniority (in months) and Date as Lt

Anthony GD'SA (42317-Z), 08.01.2002, 5.0—8 Feb 2004  
J James (42314-T), 07.01.02, 07—07 Dec 2003  
AS Haroon (42309-F), 07.01.02, 7.5—22 Nov 2003  
GK Promod (42296-A), 07.01.02, 03—07 Apr 2004  
VM Kadam (42297-B), 07.01.02, 7.5—22 Nov 2003  
SK Choudhary (42316-Y), 08.01.02, 06—08 Jan 2004  
NS Deshmukh (42353-F), 12.08.02, 12—12 Feb 2004

S Kiran (42335-R), 12.08.02, 12—12 Feb 2004

A Nabira (42231-B), 02.07.01, 12—02 Jan 2003

C A Shahane (42340-A), 12.08.02, 12—12 Feb 2004

Praveen G (42339-Z), 12.08.02, 12—12 Feb 2004

Ravi S (42332-H), 12.08.02, 11.5—27 Feb 2004

Sanju J (42337-W), 12.08.02, 11.5—27 Feb 2004

Akaram K Iliyas (42325-T), 12.08.02, 11.0—12 Mar 2004

Nilesh Jope D (42328-Z), 12.08.02, 11.0—12 Mar 2004

Ajay Singh (42345-N), 12.08.02, 11.0—12 Mar 2004

Sandeep R S (42322-K), 12.08.02, 10.5—27 Mar 2004

D K Karthik (42347-T), 12.08.02, 10—12 Apr 2004

S Raghuvansi (42320-F), 12.08.02, 10—12 Apr 2004

Ganesh M (42327-Y), 12.08.02, 9.5—27 Apr 2004

Nitin Mehta (42341-B), 12.08.02, 9.5—27 Apr 2004

Armit Sood (42321-H), 12.08.02, 9.0—12 May 2004

S Prakash (42359-W), 16.08.02, 9.0—16 May 2004

TG Joshi (42329-A), 12.08.02, 9.0—12 May 2004

Sangamesh (42318-A), 12.08.02, 8.5—27 May 2004

Mahendran C R (42338-Y), 12.08.02, 8.0—12 Jun 2004

Thayath V (42352-B), 12.08.02, 8.0—12 Jun 2004

Anup Cherian (42348-W), 12.08.02, 7.5—27 Jun 2004

Arun S (42363-B), 23.08.02, 7.5—08 Jul 2004

Abraham T K (42343-H), 12.08.02, 7.5—27.06.04

P K Singh (42344-K), 12.08.02, 7.5—27 Jun 2004

S N Natarajan (42361-Z), 22.08.02, 7.5—7 Jul 2004

Anoop Kurian P (42334-N), 12.08.02, 7.0—12 Jul 2004

Arun Kumar (42350-Z), 12.08.02, 7.0—12 Jul 2004

K P Shabareesha (42357-R), 15.08.02, 7.0—15 Jul 2004

V Karunakar (42342-F), 12.08.02, 6.5—27 Jul 2004

Girish R Jadhav (42356-N), 14.08.02, 6.5—29 Jul 2004

Ranjith R M (42354-H), 12.08.02, 6.5—27 Jul 2004

Kishan K B (42351-A), 12.08.02, 6.5—27 Jul 2004

R R Raja (42358-T), 16.08.02, 6.0—16 Aug 2004

P Madhu (42355-K), 12.08.02, 5.5—27 Aug 2004

Kiran K R (42333-K), 12.08.02, 5.5—27 Aug 2004

V Lincoln (42349-Y), 12.08.02, 5.0—12 Sep 2004

K Subash (42326-W), 12.08.02, 5.0—12 Sep 2004

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 124 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission Seniority (in months) and Date as Lt

B P S Grewal, (42234-K), 02.07.01, 12.0—02 Jan 2003  
 Ajit Mathw (42237-T), 02.07.01, 10.5—17 Feb 2003  
 Deepak Kota (42245-K), 02.07.01, 8.5—17 Apr 2003  
 Jaspinder S Bal (42244-H), 02.07.01, 7.5—17 May 2003  
 Vivek Kamat (42241-A), 02.07.01, 7.5—17 May 2003  
 M Paramkar (42240-Z), 02.07.01, 5.5—17 Jul 2003  
 Bidkar G D (42229-Z), 02.07.01, 5.5—17 Jul 2003  
 Abhishek Dube (42239-Y), 02.07.01, 5.5—17 Jul 2003  
 Devaian N K (42230-A), 02.07.01, 4.0—02 Sep 2003  
 Anindya S Datta (42238-W), 02.07.01, 3.5—17 Sep 2003  
 Sumit Upadhyia (42232-F), 02.07.01, 3.0—02 Oct 2003  
 S G Nilkund (42236-R), 02.07.01, 2.0, 02 Nov 2003

## SUB LIEUTENANTS TO BE LIEUTENANTS

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 124 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission and Date of promotion as Lt

G N Lakhmapure (42179-K), 03.07.00—03 Jan 2002  
 B G Perumpilly (42218-Z), 01.01.01—01 Jul 2002  
 M B Thimmaiah (42219-A), 01.01.01—01 Nov 2002  
 Ahish Ganu S (42220-B), 01.01.01—01 Jul 2002  
 Yogesh Amritlal B (42221-F), 01.01.01—01 Aug 2002  
 Shiv Kumar S Ghataga (42222-H), 01.01.01—01 Jul 2002  
 A Marvin Jose (42223-K), 01.01.01—16 Jul 2002  
 Gangatirkar Prashant S (42224-N), 01.01.01—16 Sep 2002  
 M T Ashok Kumar (42225-R), 01.01.01—16 Oct 2002

Name & Per No., Date of Commission Seniority (in months) and Date as Lt

Rajesh S (42124-K), 03.01.00, 11.5—18 Jul 2001  
 Chetri S Kumar (42125-N), 03.01.00, 12—03 Jul 2001  
 B K Nishant (42128-W), 03.01.00, 10.5—18 Aug 2001  
 K P Vijay Kumar (42133-F), 03.01.00, 10.5—18 Aug 2001

Name & Per No., Date of Commission Seniority (in months) and Date as Lt

A Praveen (42294-Y), 07.01.02, 4.5—22 Feb 2004  
 G P Kumar (42301-N), 07.01.02, 2.5—22 Apr 2004

P Kishore Kumar (42298-F), 07.01.02, 6.0—07 Jan 2004  
 T P Vinod Kumar (42299-H), 07.01.02, 7.0—07 Dec 2003  
 M P Ajay (42307-A), 07.01.02, 9.0—07 Oct 2003  
 P Deshpande (42308-B), 07.01.02, 6.5—22 Dec 2003  
 V Agarwal (42313-R), 07.01.02, 11.5—22 Jul 2003  
 M Kakde (42302-R), 07.01.02, 5.5—22 Jan 2004  
 Vikas Verma (42305-Y), 07.01.02, 2.0—07 May 2004  
 Jayasenan Y (42292-T), 07.01.02, 2.5—22 Apr 2004  
 Anoop Rajan (42300-K), 07.01.02, 8.0—07 Nov 2003  
 Sanjeev Raju (42291-R), 07.01.02, 1.0—07 Jun 2004  
 P Mathias (42293-W), 07.01.02, 1.5—22 May 2004  
 I Tapalwale (42303-T), 07.01.02, 4.0—07 Mar 2004  
 Rahul Dalal (42315-W), 07.01.02, 3.0—07 Apr 2004  
 Gavi Kumar (42289-K), 07.01.02, 11.5—22 Jul 2003  
 B Biswas (42295-Z), 07.01.02, 4.0—07 Mar 2004  
 S Vimal Kumar (42311-K), 07.01.02, 12—07 Jul 2003

## (PERMANENT COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in the Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory:—

Name & Per No., Date of Commission Seniority (in months) and Date of Promotion as Lt

Gautham, YB (51673-N), 01.01.2000, 12.0—01 Jan 2002  
 Gupta, Vipul (51674-R), 01.01.2000, 3.0—01 Oct 2002  
 Lalit Kumar (51675-T), 01.01.2000, 11.0—01 Feb 2002  
 Mathai, George (51676-W), 01.01.2000, 12.0—01 Jan 2002

Padam, Sandeep (51677-Y), 01.01.2000, 11.5—16 Jan 2002

Singh, Deepa Kumar (51678-Z), 01.01.2000, 12.0—01 Jan 2002

Saggu, T Singh (51679-A), 01.01.2000, 12.0—01 Jan 2002  
 Bhatnagar, Mrinal (51750-N), 01.01.02, 12—01 Jan 2004  
 Chauhan, Saurav (51751-R), 01.01.02, 11.5—16 Jan 2004  
 Gargori, Siddhartha (51752-T), 01.01.02, 6.5—16 Jun 2004

Inamdar, Vivek (51753-W), 01.01.02, 7.5—16 May 2004  
 Karve, Ishan A (51754-Y), 01.01.02, 2.0—01 Nov 2004  
 Kaushik, Amit (51755-Z), 01.01.02, 12—01 Jan 2004  
 Manish Kumar (51756-A), 01.01.02, 5.0—01 Aug 2004  
 Pant, Gunjan (51757-B), 01.01.02, 12—01 Jan 2004

Pradosh Kumar (51758-F), 01.01.02, 4.0—01 Sep 2004  
 Roy, Prasenjit (51759-H), 01.01.02, 5.0—01 Aug 2004  
 Sharma, Ashutosh (51760-K), 01.01.02, 9.5—16 Mar 2004  
 Shivkumar, V (51761-N), 01.01.02, 10.5—16 Feb 2004  
 Venkatasubramaniam, R (51762-R), 01.01.02, 11—01 Feb 2004

Vishesh, Virendra Vikram (51763-T), 01.01.02, 10.5—16 Feb 2004

Name & Per No., Date of Commission, Seniority  
 (in months) and Date as Lt

Kumar, J (51620-T), 01.01.99, 12—01 Jan 2001  
 Pisolkar, M (51621-W), 01.01.99, 6.5—16 Jun 2001  
 Saini, Ravi (51622-Y), 01.01.99, 11.5—16 Jan 2001  
 Kumar, Santosh (51623-Z), 01.01.99, 12—01 Jan 2001  
 Biradar, SK (51624-A), 01.01.99, 12—01 Jan 2001  
 D Chandra Sekhar (51552-N), 01.01.98, 4.5—16 Aug 2000  
 Sharma Nishant (52558-A), 01.01.98, 10.5—16 Feb 2000  
 Raturi Aditya (51597-R), 01.07.98, 12—01 Jul 2000  
 Fernandes Anil (51598-T), 01.07.98, 12—01 Jul 2000  
 Bhandari Asheesh Dutt (51599-W), 01.07.98, 5.5—16 Jul 2000

Dhody Sardeep Singh (51600-Y), 01.07.98, 12—01 July 2000

Guha Shubharangshu (51601-Z), 01.07.98, 12—01 July 2000

Gokhale D Yeshwant (51602-A), 01.07.98, 12—01 July 2000

Madabhuship Naveen (51603-B), 01.07.98, 12—01 July 2000

Sharma Nishant (51604-F), 01.07.98, 12—01 July 2000

Sharma Sachin (51605-H), 01.07.98, 12—01 July 2000

Yogesh Singh (51606-K), 01.07.98, 12—01 July 2000

PK Basak (51658-B), 01.01.99, 8—01 May 2001

Sreedeeep S Nair (51619-R), 01.01.99, 2.5—16 Mar 2002

Name & Per. No., Date of Commission and Date as Lt

Amresh K Singh (51625-B), 01.07.99,—16 Oct 2001

M Bhattacharya (51626-F), 01.07.99,—01 Jul 2001

Michael A Rdrigues (51627-H), 01.07.99,—16 Jul 2001

Victor Pratap Singh (51629-N), 01.07.99,—01 Jul 2001

Ashish Agarwal (51630-R), 01.07.99,—01 Jul 2001

Shailender Gupta (51680-B), 01.07.2000,—01 Jan 2002

Raghvender Singh (51681-F), 01.01.2000,—01 Jan 2002

Name & Per No., Date of Commission, Seniority  
 (in months) and Date as Lt

PV Karthik (51547-A), 01.01.98, 6.0—1 Jul 2000

Rahul Inamdar (51548-B), 01.01.98, 4.0—01 Sept 2000

The DGN raised vide No. Jo/99 dated 21 Mar 2001 in so far as these officers are concerned is cancelled.

Kulshreshta, Ankur (51693-H), 01.01.2001, 9.0—01 Apr 2003

Singh, Bhoopendra (51694-K), 01.01.2001, 6.0—01 Jul 2003

Chaturvedi, Manoj (51695-N), 01.01.2001, 10.0—01 Mar 2003

Das Piyush Pratim (51696-R), 01.01.2001, 8.5—16 Apr 2003

Mehra, Prabal (51697-T), 01.01.2001, 7.5—16 May 2003

Mishra, Prabhat (51698-W), 01.01.2001, 5.5—16 Jul 2003

Mittal, Anurag (51699-Y), 01.01.2001, 12.0—01 Jan 2003

Mohan, PR Jagan (51700-Z), 01.01.2001, 10.5—16 Feb 2003

Nair, Deepak (51701-A), 01.01.2001, 6.0—01 Jul 2003

Oberoi, Nitin (51702-B), 01.01.2001, 12.0—01 Jan 2003

Peri, Arun Kumar (51703-F), 01.01.2001, 11.0—01 Feb 2003

Ravikhanna V (51704-H), 01.01.2001, 4.0—01 Sep 2003

Sharma, Sarvesh Chandra (51705-K), 01.01.2001, 9.5—16 Mar 2003

Singh, Amardip (51706-N), 01.01.2001, 12.0—01 Jan 2003

Singh, Madhavendra (51707-R), 01.01.2001, 10.5—16 Feb 2003

Singh, Ravi Kumar (51708-T), 01.01.2001, 8.5—16 Apr 2003

Sreekanth, S (51709-W), 01.01.2001, 12—01 Jan 2003

Varma, Ramraj (51710-Y), 01.01.2001, 8.0—01 May 2003

#### (SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal number, Date of Commission, Seniority  
 (in months) and Date as Lt

S Sarvanan (51576-T), 10.01.98, 12.0—10 Jul 1999

The DGN raised vide No. Jo/101 dated 08 Mar 01 in so far as this officer is concerned is cancelled.

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal number, Date of Commission, Seniority (in months) and Date as Lt

Deepak Tomar (51839-R), 07.01.02, 12—07 Jul 2003  
 S Marathe (51842-Y), 07.01.02, 06—07 Jan 2004  
 Anurag S (51849-N), 07.01.02, 08—07 Nov 2003  
 Rakesh Paul (51844-A), 07.01.02, 07—07 Dec 2003  
 J Ghosh (51843-Z), 07.01.02, 10.5—22 Aug 2003  
 R Balaji (51855-A), 07.01.02, 5.5—22 Jan 2004  
 Ravi S Singh (51845-B), 07.01.02, 09—07 Oct 2003  
 NS Srinivasan (51851-T), 07.01.02, 10.5—22 Aug 2003  
 Pradeep K Nanda (51689-Z), 03.01.2000, 12.0—03 Jul 2001

S Gopu (51690-A), 03.01.2000, 9.5—18 Sep 2001  
 K Madhav (51691-B), 03.01.2000, 4—03 Mar 2002  
 Kunjal Mehta (51692-F), 03.01.2000, 9.5—18 Sep 2001

Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name of SLt & Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

BK Nath (51774-T), 01.01.01—01 Dec 2002  
 Soumen Jash (51775-W), 01.01.01—01 Jul 2002  
 Vikram Nehru (51776-Y), 01.01.01—16 Oct 2002  
 N Varadha Raj (51777-Z), 01.01.01—01 Jan 2003  
 Ajitpal Singh (51778-A), 01.01.01—16 Jul 2002  
 Hitesh Kumar (51779-B), 01.01.01—01 Dec 2002  
 Ranjit Gabriel (51780-F), 01.01.01—01 Jul 2002

(SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in the Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 126 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name of SLt & Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

A Kotoky (51791-F), 02.07.01—02 Oct 2003  
 Amarendra Kumar (51792-H), 02.07.01—17 Mar 2003  
 Sagar A Hasamnis (51793-K), 02.07.01—02 Apr 2003  
 Sandeep Kulkarni (51794-N), 03.07.01—03 Mar 2003  
 Sheikh Akbar Ali (51795-R), 06.07.01—06 Jun 2003  
 G Narresh (51796-T), 06.07.01—21 Aug 2003

GEORGE MATHEW  
 DD (C & J)  
 Dte of Personnel

## AIR FORCE

No. 632, dated 30 November 2004.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

Indian Air Force

ADM Branch

Flt Lt to be substantive Sqn Ldr

R Mishra (22614), wef 19 Apr 2004.

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(MS) Nirmala Tyagi (25692), (MS) Shakuntala Hatibarul (25693), (MRS) Anjali Iyer (25694), (MS) Sumita Mohapatra (25695), (MS) Seema Nandakumar (25696)—19 June 2003

MET BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(MS) Abha Tewary (25275), (MS) Seema Dahiya (25276)—19 June 2003.

SSRIVASTAV  
 Sqn Ldr  
 DDPO 3(D)

## ARMY BRANCH

No. 633, dated 25th November 2004.—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform.

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt. Col. (Sel) V Carmelus, TA-41605, Engrs, 31 Jul 2004

ML SHARMA  
 Under Secy.

## RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 634, dated 25th November 2004.—On attaining the age of superannuation viz 60 years, Shri S.C. Malhotra, Section Officer, R&D Orgn retired from service w.e.f. 30 Sep 2004 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 1 Oct 2004).

SANTOSH DASGUPTA  
 Dy. Chief Administrative Officer (A)

## ARMY BRANCH

No. 635, dated 30th November 2004.—The president is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen GC Boruah (MR-04602L), AMC/PC—30 Nov 2003 (AN)



Brig CT Ratanchandani (MR-02270N), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Brig SC Mohanty (MR-02937K), AMC/PC—30 Nov 2003 (AN)

Brig AK Sinha (MR-03937W), AMC/PC—31 Dec 2003 (AN)

Brig SC Sharma (MR-03482L), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Brig BK Taneja (MR-02568X), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Brig KJ Phillipose, VSM & Bar (MR-03429A), AMC/PC—31 Dec 2003 (AN)

Col MS Chhabra (MR-02279H), AMC/PC—30 Nov 2003 (AN)

Col RK Thaker (MR-02689Y), AMC/PC—31 Dec 2003 (AN)

Col UV Deshpande (MR-02949Y), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Col TV Tomy (MR-03652K), AMC/PC—31 Dec 2003 (AN)

Lt Col Sarv Sarup (MR-02779A), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Lt Col SN Joshi (MR-03383H), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Lt Col KP Manrai (MR-02829A), AMC/PC—31 Oct 2003 (AN)

Lt Col Anil Jani (MR-04620N), AMC/PC—30 Nov 2003 (AN)

Lt Col (Mrs) MV Painoli (MR-07124X), AMC/PC—30 Nov 2003 (AN)

M. SRIVASTAVA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

#### CORRIGENDUM

#### ARMY BRANCH

No. 636, dated 25th November 2004—In the Ministry of Defence Notification No 29 dated 15 Dec 2003 published in the Gazette of India serial No 2 dated 10 Jan 2004 under heading 'Regular Army' Sub heading 'Infantry' The Mechanised Infantry Regiment below :—

To be Substantive Subedar (GD)

(a) For :—Nb Sub Karnail Singh (JC-418994H), 10th Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 02 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Read :—Nb Sub Karnail Singh (JC-418994H), 10th Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 02 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

(b) For :—Nb Sub Krishna Bahadur Poudel Chhetri (JC-419048W), 5th Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Read :—Nb Sub Krishna Bahadur Poudel Chhetri (JC-419048W), 25th Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

(c) For :—Nb Sub Tarsem Singh (JC-418756W), 23rd Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Read :—Nb Sub Tarsem Singh (JC-418756W), 03rd Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

#### CORRIGENDUM

No. 637, dated 30th November 2004—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 12 Apr 2003 under the heading "Regular Army, Permanent commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following is inserted below the names of the officers :—

06 Nov 2002

K. S. VERMA  
Jt Dir.  
MS 8C

#### PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

#### CORRIGENDUM

No. 638, dated 30th November 2004—1. Date of seniority of JC-185929W Subedar Major Rajbir Singh, AD Arty (SL-4740M, Lt, TEO (AD Arty) and JC-174829L Subedar Anupam Gupta, ENGRS (SL-4744H, Lt, ABE B/R/ASW) who were granted permanent commission in the Special List in the rank of Lt on 05 Jul 2003 on the Court Judgement, against 1993 quota of vacancies, have been changed from 05 Jul 2003 to 30 Apr 1994 along with course mates of 1993 quota of vacancies. Accordingly, seniority of JC-185929W Subedar Major Rajbir Singh, AD Arty (SL-4740M, Lt, TEO (AD Arty) is fixed below JC-144098N Subedar KM Pandurang, ENGRS (SL-4120W, Lt, QM) and above JC-200340M Subedar Krishna Kant Jha, Arty (SL-4121Y, Lt, TEO, Arty) and seniority of JC-174829L Subedar

Anupam Gupta, ENGRS (SL-4744H, Lt, AEE/B/R/ASW) is fixed below JC-174795H Naib Subedar Naresh Kumar Goyal, ENGRS (SL-4141M, 2/Lt, AEE/BR and above JC-174790K Naib Subedar Pritpal Singh Bhatia, ENGRS (SL-4142P, 2/Lt AEE/BR of 1993 quota of vacancies whose name appear in the Gazette No 459 published on 15 Jul 95.

2. The name of the above officers appearing in Gazette Notification published on 21 Aug 2004 is hereby deleted.

ARVIND KUMAR  
Major  
DAMS-8B

## INDIAN AIR FORCE

### CORRIGENDUM

No. 639, dated 30th November 2004—Reference Ministry of Defence Notification SI No. 11 Entry No 158 Published in the Gazette dated 15 Mar 03 under Air Force, Accts Branch. The name in respect of the undermentioned officer is amended as under.

For :—Fg Offr V Venkatramanam (26157S) Accts

Read :—Fg Offr V Venkataramanan (26157S) Accts

S. SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3(D)